

ICAR ABC01

Topic:- ABC01_Agriculture

1) Match List I with List II

List I	List II
(Catalytic cycle)	(Action)
A. Step I	I. Binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, which fit more tightly around the substrate.
B. Step II	II. Enzyme releases products of the reaction and the free enzyme is ready to bind to another molecule of the substrate.
C. Step III	III. Substrate binds to the active site of the enzyme and fits into the active site.
D. Step IV	IV. Active site of the enzyme in close proximity of the substrate breaks the chemical bonds of the substrate.

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
उत्प्रेरक घटक	गतिविधि
A. वरण I. सबस्ट्रेट का बंधन एंजाइम को अपने आकार को बदलने के लिए प्रेरित करता है जो सबस्ट्रेट के चारों ओर अधिक कशकर फिट होता है	
B. वरण II. एंजाइम प्रतिक्रिया के उत्पादों को मुक्त करता है और मुक्त एंजाइम सबस्ट्रेट के दूसरे एण्डु को बांधने के लिए तैयार होता है	
C. वरण III. सबस्ट्रेट एंजाइम की सक्रिय साइट से जुड़ता है और सक्रिय साइट में फिट होता है	
D. वरण IV. एंजाइम की सक्रिय साइट सबस्ट्रेट की निकटता में सबस्ट्रेट के ग्रासायनिक बंधनों को तोड़ती है	

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जटर चुनिए :

[Question ID = 351][Question Description = 101_91_AGR_AUG22_Q01]

1. A - II, B - I, C - IV, D - III

[Option ID = 1401]

2. A - IV, B - III, C - II, D - I

[Option ID = 1402]

3. A - I, B - II, C - III, D - IV

[Option ID = 1403]

4. A - III, B - I, C - IV, D - II

[Option ID = 1404]

2) Read the following statements -

- A. In prokaryotes, ribosomes are associated with the plasma membrane of the cell.
- B. Ribosomes are made of 50S and 20S subunits which when present together form 70S prokaryotic ribosomes.
- C. Ribosomes are the site of protein synthesis.
- D. The ribosomes of a polysome translate the mRNA into proteins.

Choose the correct answer from the options given below:

निम्नलिखित कथनों को पढ़ें-

- A. प्रौक्तिकोदस में राइबोसोम कोशिका के प्लाज्मा सिल्वरी से जुड़े होते हैं
- B. राइबोसोम 50S और 20S सबयूनिट से बने होते हैं जो एक साथ मिलकर 70S प्रौक्तिक राइबोसोम बनाते हैं
- C. राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है
- D. एक पॉलीसोम के राइबोसोम mRNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 352][Question Description = 102_91_AGR_AUG22_Q02]

- 1. A, B and C only
केवल A, B और C

[Option ID = 1405]

- 2. A, C and D only
केवल A, C और D

[Option ID = 1406]

- 3. B, C and D only
केवल B, C और D

[Option ID = 1407]

- 4. A, B and D only
केवल A, B और D

[Option ID = 1408]

3) Given below are two statements-

Statement I: The Double-helix structure of DNA is made of two polynucleotide chains, where the backbone is constituted by sugar-phosphate, and the bases project inside.

Statement II: Eucaryotic DNA structure contains a set of negatively charged basic proteins called histones.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : डीएनए की डबल-हेलिक्स संरचना दो पोलीन्यूक्लियोटाइड शूल्यांगों से बनी होती है, जहां बैक्योन शुगर-फॉर्म्सफेट द्वारा गठित होता है, और बेस अंदर प्रोजेक्ट करते हैं

कथन - II : यूक्तिक डीएनए संरचना में हिस्टोन नामक नकारात्मक चार्ज किए गए मूल प्रोटीन का एक सेट होता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 353][Question Description = 103_91_AGR_AUG22_Q03]

- 1. Both Statement I and Statement II are true
कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1409]

- 2. Both Statement I and Statement II are false
कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1410]

- 3. Statement I is true but Statement II is false
कथन I सत्य है, किन्तु कथन II गलत है |

[Option ID = 1411]

- 4. Statement I is false but Statement II is true
कथन I असत्य है, किन्तु कथन II सही है

[Option ID = 1412]

4) Which contrasting trait was studied in garden pea by Gregor Mendel for flower colour?

ग्रेगर मैंडल द्वारा फूलों के रंग के लिए मटर में किस विपरीत लक्षण का अध्ययन किया गया था?

[Question ID = 354][Question Description = 104_91_AGR_AUG22_Q04]

1. Green/ Yellow

हरा / पीला

[Option ID = 1413]

2. Violet/ White

वैंगनी / सफेद

[Option ID = 1414]

3. Yellow/ Green

पीला / हरा

[Option ID = 1415]

4. White/ Violet

सफेद / वैंगनी

[Option ID = 1416]

5) Given below are two statements-

Statement I: Landraces and pure lines are examples of homogeneous population.

Statement II: Composites and multilines are examples of heterogeneous population.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : मूल पूजातियाँ और शुद्धपंक्तियाँ साजातीय जनसंख्या के उदाहरण हैं

कथन - II : मिश्रित और बहुपंक्तियाँ विषम जनसंख्या के उदाहरण हैं

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 355][Question Description = 105_91_AGR_AUG22_Q05]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1417]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1418]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है , किन्तु कथन II गलत है |

[Option ID = 1419]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I अ सत्य है , किन्तु कथन II सही है

[Option ID = 1420]

6) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : Globulin proteins are insoluble in water but soluble in dilute salt solutions of strong acids and bases.

Reason R : Scleroproteins are soluble in all neutral solvents and in dilute alkalies and acids.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकथन (A) : ज्वोब्युलिन प्रोटीन पानी में अघुलनशील होते हैं तोकिन मजबूत अम्ल और क्षार के तंतु नमक के घोल में घुलनशील होते हैं

तर्क (R) : स्क्लेरोप्रोटीन सभी तरस्थ द्रवकों में और पतले क्षार और अम्ल में घुलनशील होते हैं

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 356][Question Description = 106_91_AGR_AUG22_Q06]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 1421]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 1422]

3. A is true but R is false

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 1423]

4. A is false but R is true

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 1424]

7) Which of the following cellular function is associated with Biotin (Vit. H)?

निम्नलिखित में से कौन-सा कोशिकीय कार्य बायोटिन (विटामिन-एच) से जुड़ा है?

[Question ID = 357][Question Description = 107_91_AGR_AUG22_Q07]

1. Coenzyme in CO₂ fixation

CO₂ रिखरीकरण में कोएंजाइम

[Option ID = 1425]

2. Coenzyme for amino acid conversion

अमीनो अम्ल रूपांतरण के लिए कोएंजाइम

[Option ID = 1426]

3. Coenzyme for pyruvate metabolism

पाइरूवेट चर्यापद्धति के लिए कोएंजाइम

[Option ID = 1427]

4. Part of dehydrogenase enzyme

डिहाइड्रोजिनेज़ एंजाइम का हिस्सा

[Option ID = 1428]

8) Who reported first time the presence of ribosomes in plants?

पौधों में राइबोसोम की उपस्थिति की सूचना सर्वप्रथम किसने दी थी?

[Question ID = 358][Question Description = 108_91_AGR_AUG22_Q08]

1. Robinsen and Brown (1953)

रोबिन्सन और ब्रॉन (1953)

[Option ID = 1429]

2. Haguenuau (1958)

हाग्युएनाउ (1958)

[Option ID = 1430]

3. Palade (1953)

पालेड (1953)

[Option ID = 1431]

4. Christain de Duve (1955)

च्रिस्टीन डी द्यूव (1955)

[Option ID = 1432]

9) Given below are two statements-

Statement I: The smooth bacterial movement in a fixed direction mediated by the rotation of flagella in a clockwise direction.

Statement II: The tumbling in bacterial movement is caused by the rotation of flagella in an anticlockwise direction.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : निर्बाध जीवाणु को एक निश्चित दिशा में गति प्रदान के दक्षिणावर्त दिशा में घूमने से होती है

कथन - II : जीवाणुरीय टर्भिटिंग मूवमेंट प्रदान के वामावर्त दिशा में घूमने के कारण होता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 359][Question Description = 109_91_AGR_AUG22_Q09]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1433]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1434]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है, फिल्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 1435]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I असत्य है, फिल्तु कथन II सही है।

[Option ID = 1436]

10) Which component is absent in the cell wall of gram negative bacteria?

ग्राम ऋणात्मक जीवाणुओं की कोशिका वित्ति में कौन-सा घटक अनुपस्थित होता है?

[Question ID = 360][Question Description = 110_91_AGR_AUG22_Q10]

1. Lipoprotein

लाइपोप्रोटीन

[Option ID = 1437]

2. Lipopolysaccharide

लाइपोपॉलीसैक्याइड

[Option ID = 1438]

3. Glycolipids

ब्लाइफॉलिपिड्स

[Option ID = 1439]

4. Phospholipid

फॉस्फोलिपिड

[Option ID = 1440]

11) Given below are two statements-

Statement I: BOD is a measure of the organic matter present in the water.

Statement II: The greater the BOD of waste water, more is its polluting potential.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below:

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : बीओडी पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ का एक माप है।

कथन - II : अपशिष्ट जल की बीओडी जितनी अधिक होती है, उसकी प्रदूषण क्षमता उतनी ही अधिक होती है।

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 361][Question Description = 111_91_AGR_AUG22_Q11]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं।

[Option ID = 1441]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं।

[Option ID = 1442]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है, फिल्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 1443]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I असत्य है, फिल्तु कथन II सही है।

[Option ID = 1444]

12) Which light is most favourable for plant growth and development?

पौधे की वृद्धि और विकास के लिए कौन सा प्रकाश सबसे अनुकूल है?

[Question ID = 362][Question Description = 112_91_AGR_AUG22_Q12]

1. Blue

जीता

[Option ID = 1445]

2. Green

हरा

[Option ID = 1446]

3. Violet

वायलेट

[Option ID = 1447]

4. Red

लाल

[Option ID = 1448]

13) Match List I with List II

List I	List II
Rice	Optimum temperature
A. Germination	I. 20–25°C
B. Tillering	II. 33°C
C. Panicle initiation	III. 31°C
D. Ripening	IV. 20–35°C

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I को सूची II के साथ सुमित्रित करें

सूची I	सूची II
थान	इल्टतम तापमान
A. अंकुरण	I. 20-25°C
B. छुटान	II. 33°C
C. पुष्पगुच्छ आरम्भन	III. 31°C
D. पकना	IV. 20-35°C

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिएः

[Question ID = 363][Question Description = 113_91_AGR_AUG22_Q13]

1. A-I, B-II, C-III, D-IV [Option ID = 1449]

2. A-I, B-III, C-II, D-IV [Option ID = 1450]

3. A-IV, B-II, C-III, D-I [Option ID = 1451]

4. A-IV, B-III, C-II, D-I [Option ID = 1452]

14) Where is 'ICAR-National Bureau of Animal Genetic Resources' situated?

आईसीएआर-ग्राहीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहां स्थित है?

[Question ID = 364][Question Description = 114_91_AGR_AUG22_Q14]

1. Agra

आगरा

[Option ID = 1453]

2. Izatnagar

इजतनगर

[Option ID = 1454]

3. Karnal

करनाल

[Option ID = 1455]

4. Mathura

मथुरा

[Option ID = 1456]

15) Given below are two statements

Statement I: As per 20th Livestock Census, total livestock population is 536.76 billion in the country.

Statement II: As per 20th Livestock Census, the total number of cattle in the country is 193.46 billion.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : 20वीं पशुधन गणना के अनुसार, देश में कुल पशुधन संख्या 536.76 बिलियन है

कथन - II : 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में गोवंशी पशुओं की कुल संख्या 193.46 बिलियन है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 365][Question Description = 115_91_AGR_AUG22_Q15]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1457]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1458]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है, किन्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 1459]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I अ सत्य है, किन्तु कथन II सही है।

[Option ID = 1460]

16) Match List I with List II

List I	List II
Crossbred Cattle	Breeds used for crossing
A. Frieswal	I. Holstein Friesian and Tharparkar
B. Karanfries	II. Jersey and Non Descript Cattle
C. Karanswiss	III. Holstein Friesian and Sahiwal
D. Tailor	IV. Brown Swiss and Sahiwal

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
गोवंशी पशुओं की संकर नस्तों	संकरण हेतु प्रयुक्त नस्तों
A. फ्रीजिवाल	I. होलस्टीन फ्रीजियन व थारपारकर
B. करणफ्रीज	II. जर्सी व अवर्गीकृत गोवंश
C. करणस्विस	III. होलस्टीन फ्रीजियन व साहीवाल
D. टेलर	IV. ब्राउन स्विस व साहीवाल

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 366][Question Description = 116_91_AGR_AUG22_Q16]

1. A - IV, B - III, C - I, D - II [Option ID = 1461]

2. A - III, B - I, C - IV, D - II [Option ID = 1462]

3. A - II, B - I, C - IV, D - III [Option ID = 1463]

4. A - III, B - IV, C - II, D - I [Option ID = 1464]

17) How much covered area of floor is required for cow?

गाय के लिए फर्श का कितना ढका हुआ क्षेत्र आवश्यक है?

[Question ID = 367][Question Description = 117_91_AGR_AUG22_Q17]

1. 3.5 m²

3. 5 मी²

[Option ID = 1465]

2. 7 m²

7 मी²

[Option ID = 1466]

3. 10.5 m²

10.5 मी²

[Option ID = 1467]

4. 14 m²

14 मी²

[Option ID = 1468]

18) What is the pH of Good Quality silage?

अच्छी गुणवत्ता वाली साइलेज का पी.एच. मान कितना होता है?

[Question ID = 368][Question Description = 118_91_AGR_AUG22_Q18]

1. 3.7 - 4.2 [Option ID = 1469]
2. 4.2 - 4.5 [Option ID = 1470]
3. 4.5 - 4.8 [Option ID = 1471]
4. Higher than 4.8

4.8 से अधिक

[Option ID = 1472]

19) Read the following statements

- A. Cellulose is more complex and less soluble carbohydrate.
- B. No known enzyme of large animals can digest cellulose.
- C. Cellulose is broken down by microbial enzyme cellulase.
- D. Cellulose has a very important role as nutrient in case of carnivorous animals.

Choose the **correct** answer from the options given below:

निम्नलिखित वर्तन्य पढ़ें

- A. सेल्युलोज अधिक जटिल और कम मुलनशील कार्बोहाइड्रेट है
- B. बड़े पशुओं का कोई ज्ञात एंजाइम सेल्युलोज को पचा नहीं सकता है
- C. सेल्युलोज को माइक्रोबियल एंजाइम सेल्युलोज द्वारा तोड़ा जाता है
- D. मांसाहारी पशुओं के मामले में पोषक तत्व के रूप में सेल्युलोज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें:

[Question ID = 369][Question Description = 119_91_AGR_AUG22_Q19]

1. A, B and C only
A, B और C फ़ेल
[Option ID = 1473]
2. A, C and D only
A, C और D फ़ेल
[Option ID = 1474]
3. B, C and D only
B, C और D फ़ेल
[Option ID = 1475]
4. A, B and D only
A, B और D फ़ेल
[Option ID = 1476]

20) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : About 250 adult birds per hectare can be reared in free range system of poultry housing.

Reason R : Free range system of poultry housing is less capital intensive.

In light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकथन (A) : कुत्कुट आवास की घी रेज प्रणाली में प्रति हेक्टेयर लगभग 250 वयस्क पक्षियों को पाला जा सकता है

तर्क (R) : कुत्कुट आवास की घी रेज प्रणाली कम पूँजी वाली होती है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 370][Question Description = 120_91_AGR_AUG22_Q20]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A
(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है
[Option ID = 1477]
2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A
(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
[Option ID = 1478]
3. A is true but R is false

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं हैं

[Option ID = 1479]

4. A is false but R is true

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही हैं

[Option ID = 1480]

21) Given below are two statements

Statement I: Rickets and goiter are metabolic diseases.

Statement II: Milk fever and ketosis are deficiency diseases.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : रिकेट्स और गोइटर चयापचय संबंधी रोग हैं

कथन - II : दुग्ध जवर और कीटोसिस न्यूनता जन्य रोग हैं

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नतिथित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 371][Question Description = 121_91_AGR_AUG22_Q21]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1481]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1482]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है, फिन्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 1483]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I असत्य है, फिन्तु कथन II सही है।

[Option ID = 1484]

22) Match List I with List II

List I	List II
Disease of Poultry	Main Symptom
A. New Castle Disease	I. Paralysis of one leg
B. Gumboro	II. Raised skin lesions
C. Marek's Disease	III. Greenish diarrhea
D. Fowl Pox	IV. Pasty diarrhea

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
मुर्गियों के रोग	मुख्य लक्षण
A. न्यू कैसल रोग	I. एक पैर का पक्षाघात
B. गर्बोगे	II. त्वचा के उठे हुए धाव
C. मैरेक्स रोग	III. हरा दर्हन
D. मुर्गी चेचक	IV. विपणिपा दर्हन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 372][Question Description = 122_91_AGR_AUG22_Q22]

1. A - I, B - II, C - III, D - IV [Option ID = 1485]

2. A - I, B - III, C - IV, D - II [Option ID = 1486]

3. A - II, B - IV, C - III, D - I [Option ID = 1487]

4. A - III, B - IV, C - I, D - II [Option ID = 1488]

23) What is the name of the process of making Paneer?

पनीर बनाने की प्रक्रिया का वर्णन नाम है?

[Question ID = 373][Question Description = 123_91_AGR_AUG22_Q23]

1. Concentration

सान्द्रीकरण

[Option ID = 1489]

2. Coagulation

सूक्ष्मन

[Option ID = 1490]

3. Fermentation

फिणवन

[Option ID = 1491]

4. Phase inversion of fat

वसा का फेज इन्वर्जन

[Option ID = 1492]

24) Given below are two statements

Statement I: Progesterone hormone is secreted by ovary in animals.

Statement II: Estrogen hormone is secreted by Anterior Pituitary in animals.

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : पशुओं में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रूतित होता है

कथन - II : पशुओं में एस्ट्रोजेन हार्मोन अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रूतित होता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नतिथित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 374][Question Description = 124_91_AGR_AUG22_Q24]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सही हैं

[Option ID = 1493]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1494]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है , किन्तु कथन II गलत है |

[Option ID = 1495]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I अ सत्य है , किन्तु कथन II सही है

[Option ID = 1496]

25) Match List I with List II

List I	List II
Animals	Breathing rate per minute
A. Cow	I. 10
B. Buffalo	II. 8
C. Goat	III. 15
D. Horse	IV. 25

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से समेतित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
पशु	प्रति मिनट व्यथन दर
A. गाय	I. 10
B. भैंस	II. 8
C. बकरी	III. 15
D. घोड़ा	IV. 25

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 375][Question Description = 125_91_AGR_AUG22_Q25]

1. A - I, B - II, C - III, D - IV [Option ID = 1497]
2. A - I, B - III, C - IV, D - II [Option ID = 1498]
3. A - II, B - III, C - IV, D - I [Option ID = 1499]
4. A - III, B - IV, C - II, D - I [Option ID = 1500]

26) How much area was used for growing food-grain crops in India during 2020–21?

भारत में 2020-21 के दौरान खाद्यानन फसलों को उगाने के लिए कितने क्षेत्र का उपयोग किया गया था ?

[Question ID = 376][Question Description = 126_91_AGR_AUG22_Q26]

1. 126 million hectares
126 मिलियन हेक्टेयर
[Option ID = 1501]
2. 136 million hectares
136 मिलियन हेक्टेयर
[Option ID = 1502]
3. 129 million hectares
129 मिलियन हेक्टेयर
[Option ID = 1503]
4. 132 million hectares
132 मिलियन हेक्टेयर
[Option ID = 1504]

27) Where is the ICAR- Indian Institute of Millets Research situated?

आकांक्षित-भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?

[Question ID = 377][Question Description = 127_91_AGR_AUG22_Q27]

1. Bengaluru
बैंगलुरु
[Option ID = 1505]
2. Hyderabad
हैदराबाद
[Option ID = 1506]
3. Jodhpur
जोधपुर
[Option ID = 1507]
4. Nagpur
नागपुर
[Option ID = 1508]

28) Which is the most moisture stress sensitive growth stage of maize?

मक्का की सबसे अधिक नमी तनाव संवेदनशील वृक्ष अवस्था कौन सी है?

[Question ID = 378][Question Description = 128_91_AGR_AUG22_Q28]

1. Knee high stage
युट्ना उच्च अवस्था
[Option ID = 1509]
2. Tasseling stage
टेसलिंग अवस्था
[Option ID = 1510]
3. Silking stage
सिलिंग अवस्था
[Option ID = 1511]
4. Milk stage
दूध अवस्था
[Option ID = 1512]

29) Given below are two statements

Statement I: Drip irrigation not only save water but also increase the crop yield from 20% to 100%.

Statement II: Even though, drip irrigation increases crop yield but it is not profitable as compared to sprinkler irrigation.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं:

कथन I: ड्रिप सिंचाई से न केवल पानी की बहत होती है बल्कि फसल की उपज 20% से 100% तक बढ़ जाती है

कथन II: अलग ही ड्रिप सिंचाई से फसल की पैदावार बढ़ती है लेकिन यह सिप्रक्टर सिंचाई की तुलना में लाभदायक नहीं है

उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए

[Question ID = 379][Question Description = 129_91_AGR_AUG22_Q29]

1. Both Statement I and Statement II are correct

कथन I और कथन II दोनों सही हैं

[Option ID = 1513]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

कथन I और कथन II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1514]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

कथन I सही है लेकिन कथन II गलत है

[Option ID = 1515]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

कथन I गलत है लेकिन कथन II सही है

[Option ID = 1516]

30) How many micronutrients are essential for plants?

पौधों के लिए कितने सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक हैं?

[Question ID = 380][Question Description = 130_91_AGR_AUG22_Q30]

1. 9 [Option ID = 1517]

2. 17 [Option ID = 1518]

3. 8 [Option ID = 1519]

4. 16 [Option ID = 1520]

31) Match List I with List II

List I	List II
A. Azotobacter sp.	I. Anaerobic composting
B. Aspergillus awamori	II. Eisenia foetida
C. Night soil	III. N-fixing bacteria
D. Vermicompost	IV. P-solubilization

Choose the correct answer from the options given below:

सारणी I को सारणी II से मिलाये

सारणी I:	सारणी II:
A. एज्जोटोबैक्टर पू.	I. अवायवीय खाद
B. एस्परगिलस अवामोरी	II. आइसेनिया फोएटिडा
C. गत की मिट्टी	III. N-फिक्सिंग बैक्टीरिया
D. वर्मीकॉमोस्ट	IV. P-युलनशीलता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें

[Question ID = 381][Question Description = 131_91_AGR_AUG22_Q31]

1. A-III, B-IV, C-II, D-I [Option ID = 1521]

2. A-I, B-III, C-II, D-IV [Option ID = 1522]

3. A-III, B-IV, C-I, D-II [Option ID = 1523]

4. A-IV, B-III, C-II, D-I [Option ID = 1524]

32) Read the following statements

A. Adding organic matter to the soil increase its CEC.

B. Higher content of kaolinite in a soil increase CEC of the soil.

C. Mg, Mo, Cl and K are mobile nutrients.

D. Addition of FYM can increase C sequestration by soil.

E. Cultivated soils have more SOC than forest soils.

Choose the correct answer from the options given below:

निम्नलिखित कथनों को पढ़ें

A. मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाने से इसका CEC बढ़ जाता है

B. मिट्टी में कैओलिनाइट की उच्च मात्रा मिट्टी के CEC को बढ़ाती है

C. Mg, Mo, Cl और K गतिशील पोषक तत्व हैं

D. FYM को मिट्टी में डालने से C-अधिग्रहण बढ़ सकता है

E. खेत की मिट्टी में वन मिट्टी की तुलना में अधिक SOC होता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

[Question ID = 382][Question Description = 132_91_AGR_AUG22_Q32]

1. A, B and C only

A, B और C केवल

[Option ID = 1525]

2. A, C and D only

A, C और D केवल

[Option ID = 1526]

3. C, D and E only

C, D और E केवल

[Option ID = 1527]

4. B, D and E only

B, D और E केवल

[Option ID = 1528]

33) How much pendimethalin (30 EC) is required for 5 ha area of soybean when rate of application of pendimethalin is 0.75 kg a.i./ ha?

सोयाबीन के 5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कितने पेंडिमथेलिन (30 ईसी) की आवश्यकता होती है, जब पेंडिमथेलिन के आवेदन की दर 0.75 किलोग्राम संकेतक / है. है?

[Question ID = 383][Question Description = 133_91_AGR_AUG22_Q33]

1. 15.0 kg

15.0 किलोग्राम

[Option ID = 1529]

2. 12.5 kg

12.5 किलोग्राम

[Option ID = 1530]

3. 5.0 kg

5.0 किलोग्राम

[Option ID = 1531]

4. 10.0 kg

10.0 किलोग्राम

[Option ID = 1532]

34) Match List I with List II

List I	List II
Weed	Scientific name
A. Horse purslane	I. <i>Trianthema oleracea L.</i>
B. Purslane	II. <i>Eleusine indica L.</i>
C. Pigeon grass	III. <i>Trianthema portulacastrum L.</i>
D. Goosegrass	IV. <i>Paspalum sanguinale Lamk</i>

Choose the correct answer from the options given below:

सारणी I को सारणी II से मिलाये

सारणी I	सारणी II
खरपतवार	वैज्ञानिक नाम

A. हॉर्स पर्सेलेन	I. ट्रिएंथेमा ओलोगसिया एल.
B. पर्सेलेन	II. एलुरीन इंडिका एल.
C. कबूतर धार	III. ट्रिएंथेमा पोर्टलाकैस्ट्रम एल.
D. हंसग्रास	IV. पारपलम सैंगुइनाले लैम्को

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें

[Question ID = 384][Question Description = 134_91_AGR_AUG22_Q34]

1. A-III, B-I, C-II, D-IV [Option ID = 1533]
2. A-I, B-III, C-IV, D-II [Option ID = 1534]
3. A-III, B-I, C-IV, D-II [Option ID = 1535]
4. A-I, B-III, C-II, D-IV [Option ID = 1536]

35) What is the mean maximum temperature for grain development of wheat?

गेहूँ के दाने के विकास के लिए औसत अधिकतम तापमान क्या है?

[Question ID = 385][Question Description = 135_91_AGR_AUG22_Q35]

1. 15°C
15 डिग्री सेलिसियर
- [Option ID = 1537]
2. 20°C
20 डिग्री सेलिसियर
- [Option ID = 1538]
3. 25°C
25 डिग्री सेलिसियर
- [Option ID = 1539]
4. 30°C
30 डिग्री सेलिसियर
- [Option ID = 1540]

36) Match List I with List II

List I	List II
Crop	Disease
A. Rice	I. Molya disease
B. Wheat	II. Polysora rust
C. Barley	III. False smut
D. Maize	IV. Loose smut

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें

सूची I	सूची II
फसल	रोग
A. धान	I. मोल्या रोग
B. गेहूँ	II. पोलीसोरा रस्ट
C. जौ	III. फालस स्मट
D. मक्का	IV. ढीती स्मट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

[Question ID = 386][Question Description = 136_91_AGR_AUG22_Q36]

1. A-III, B-IV, C-I, D-II [Option ID = 1541]
2. A-I, B-III, C-IV, D-II [Option ID = 1542]
3. A-III, B-IV, C-II, D-I [Option ID = 1543]
4. A-IV, B-III, C-II, D-I [Option ID = 1544]

37) Read the following statements

- A. Groundnut is determinate in growth and flowering.
- B. Groundnut is a day neutral plant.
- C. Aflatoxin of groundnut is a serious problem caused by *Aspergillus flavus* fungi.
- D. Groundnut is a C₃ plant.
- E. Phosphorous is important for root and kernel development.

Choose the *correct* answer from the options given below:

निम्नालिखित कथनों को पढ़ें।

- A. मूँगफली वृद्धि और फूल आने में निर्धारित होती है।
- B. मूँगफली एक दिन तटस्थ पौधा है।
- C. मूँगफली का एप्लार्टॉविसन एरपरगिलस पलोवस कवक के कारण होने वाली एक गंभीर समस्या है।
- D. मूँगफली एक C3 पौधा है।
- E. फारफोरस जड़ और गिरी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञान चुनिए:

[Question ID = 387][Question Description = 137_91_AGR_AUG22_Q37]

1. A, B, C and D only

A, B, C और D लोबल

[Option ID = 1545]

2. A, C, D and E only

A, C, D और E लोबल

[Option ID = 1546]

3. B, C, D and E only

B, C, D और E लोबल

[Option ID = 1547]

4. A, B, D and E only

A, B, D और E लोबल

[Option ID = 1548]

38) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A: Boron application at flowering stage improve seed-set, filling per cent, test weight and yield.

Reason R: Boron is very important nutrient for pollen germination and pollen tube development.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं: एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R के रूप में लोबल किया गया है।

अभिकथन A: फूल आने की अवस्था में बोरेन देने से बीज-निर्धारण, भ्रात फ्रैटिशत, छार दानों के वजन और उपज में सुधार होता है।

कारण R: पराग के अंकुरण और पराग नली के विकास के लिए बोरेन बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त ज्ञान कीजिए।

[Question ID = 388][Question Description = 138_91_AGR_AUG22_Q38]

1. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या करता है।

[Option ID = 1549]

2. Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A

A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

[Option ID = 1550]

3. A is correct but R is not correct

A सही है लेकिन R सही नहीं है।

[Option ID = 1551]

4. A is not correct but R is correct

A सही नहीं है लेकिन R सही है।

[Option ID = 1552]

39) Given below are two statements

Statement I: Cabbage is fifth largest vegetable crop of India.

Statement II: Madhya Pradesh has the highest productivity of cabbage in India.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं

वक्तव्य I: पत्तागोभी भारत में सबसे ज्यादा उनाई जाने वाली पांचवीं सब्जी फसल है

वक्तव्य II: भारत में पत्तागोभी की उत्पादकता मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 389][Question Description = 139_91_AGR_AUG22_Q39]

- Both Statement I and Statement II are correct

वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1553]

- Both Statement I and Statement II are incorrect

वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों ही गलत हैं

[Option ID = 1554]

- Statement I is correct but Statement II is incorrect

वक्तव्य I सही है लेकिन वक्तव्य II गलत है

[Option ID = 1555]

- Statement I is incorrect but Statement II is correct

वक्तव्य I गलत है लेकिन वक्तव्य II सही है

[Option ID = 1556]

40) *Althea rosea* belongs to which family?

अल्थिया रोसीया किस परिवार से संबंधित हैं?

[Question ID = 390][Question Description = 140_91_AGR_AUG22_Q40]

- Asteraceae

एस्टरेशी

[Option ID = 1557]

- Malvaceae

माल्वेशी

[Option ID = 1558]

- Cruciferae

क्रूसिफेरी

[Option ID = 1559]

- Amaranthaceae

एमेरान्थेशी

[Option ID = 1560]

41) Given below are two statements

Statement I: Persian garden style and Japanese styles, both are based on their respective ideas of heaven.

Statement II: Persian and Japanese garden are of formal style.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं

वक्तव्य I: पारसी एवं जापानी गार्डन दोनों ही स्वर्ण की विचारधारा पर आधारित हैं

वक्तव्य II: पारसी एवं जापानी गार्डन दोनों ही ओपचारिक शैली के गार्डन हैं

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 391][Question Description = 141_91_AGR_AUG22_Q41]

1. Both Statement I and Statement II are correct
वरकल्प I और वरकल्प II दोनों ही सही हैं
[Option ID = 1561]
2. Both Statement I and Statement II are incorrect
वरकल्प I और वरकल्प II दोनों ही गलत हैं
[Option ID = 1562]
3. Statement I is correct but Statement II is incorrect
वरकल्प I सही है लेकिन वरकल्प II गलत है
[Option ID = 1563]
4. Statement I is incorrect but Statement II is correct
वरकल्प I गलत है लेकिन वरकल्प II सही है
[Option ID = 1564]

42) Match List I with List II

List I	List II
Variety	Resistant/tolerant
A. Swarna Pratibha	I. Fusarium Wilt
B. Swarna Ajay	II. Aphid
C. Utkal Madhuri	III. Bacterial Wilt
D. Annamalai	IV. Phomopsis Blight

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I का सूची II से मिलान कीजिये

सूची I	सूची II
पिंडम	प्रतिरोधी / सहनशील
A. स्वर्ण प्रतिभा	I. फुजेरियम विल्ट
B. स्वर्ण अजय	II. एफिड
C. उत्कल माधुरी	III. जीवाणु मलानि
D. अन्नामलाई	IV. फोमोप्सिस ब्लाइट

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें :

[Question ID = 392][Question Description = 142_91_AGR_AUG22_Q42]

1. A - II, B - IV, C - I, D - III [Option ID = 1565]
2. A - III, B - IV, C - II, D - I [Option ID = 1566]
3. A - II, B - I, C - IV, D - III [Option ID = 1567]
4. A - III, B - IV, C - I, D - II [Option ID = 1568]

43) Read following statements:

- A. Pithiness in radish is more common in summer crop.
- B. Pithiness in radish is more common in autumn crop.
- C. Soaking of radish seed in NAA stimulate germination.
- D. Radish is short duration and fast growing crop.

Choose the correct answer from the options given below having true statement:

निम्नलिखित कथनों को पढ़िएः

- A. मूत्री में पिथिनेस गर्मी की फसल में अधिक होती है
- B. मूत्री में पिथिनेस ऑटम की फसल में अधिक होती है
- C. मूत्री के बीजों को NAA में डिग्नोन से अंकुरण त्वरित होता है
- D. मूत्री कम अवधि एवं तीव्र वृद्धि वाली फसल है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही कथनों वाले विकल्प का चयन करें:

[Question ID = 393][Question Description = 143_91_AGR_AUG22_Q43]

1. A, C and D only

फैल A, C और D

[Option ID = 1569]

2. A, B and C only

फैल A, B और C

[Option ID = 1570]

3. B, C and D only

फैल B, C और D

[Option ID = 1571]

4. A, B and D only

फैल A, B और D

[Option ID = 1572]

44) Which of the following is cause of greening disease of citrus?

साइट्रस के ग्रीनिंग रोग का कारण कौन सा है?

[Question ID = 394][Question Description = 144_91_AGR_AUG22_Q44]

1. Fungi

ग्रम्य

[Option ID = 1573]

2. Bacteria

जीवाणु

[Option ID = 1574]

3. Virus

वायरस

[Option ID = 1575]

4. High Temperature

उच्च तापमाल

[Option ID = 1576]

45) Given below are two statements

Statement I: Arka Anmol is regular bearing mango cultivar and is free from spongy tissue.

Statement II: Arka Aruna is a selection from exotic mango cultivar.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वक़्तव्य दिए गए हैं

वक़्तव्य I: अर्का अनमोल आम की नियमित फलान वाली एवं स्पंजी उत्तक से मुक्त किस्म है

वक़्तव्य II: अर्का अरुणा विदेशी किस्म से चयनित किस्म है

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 395][Question Description = 145_91_AGR_AUG22_Q45]

1. Both Statement I and Statement II are correct

वक़्तव्य I और वक़्तव्य II दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1577]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

वक़्तव्य I और वक़्तव्य II दोनों ही गलत हैं

[Option ID = 1578]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

वक़्तव्य I सही है लेकिन वक़्तव्य II गलत है

[Option ID = 1579]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

वक़्तव्य I गलत है लेकिन वक़्तव्य II सही है

[Option ID = 1580]

46) Match List I with List II

List I	List II
Root stock	Features
A. Rough Lemon	I. Susceptible to tristeza

B. Sour Orange	II. Resistant to quick decline
C. Rangpur Lime	III. Resistant to gummosis
D. Sweet Orange	IV. Have poor germination

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I का सूची II से मिलान कीजिये

सूची I	सूची II
मूल वृन्त	विशेषता
A. रक लेमन	I. ट्रीरेज़ा से संवेदनशील
B. खट्टा संतरा	II. विवक डीवलाईन से प्रतिरोधी
C. रंगपुर लाइम	III. गमोसिस से प्रतिरोधी
D. स्वीट ऑरेंज	IV. कम अंकुरण प्रतिशत

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें :

[Question ID = 396][Question Description = 146_91_AGR_AUG22_Q46]

1. A - I, B - IV, C - II, D - III

[Option ID = 1581]

2. A - I, B - IV, C - III, D - II

[Option ID = 1582]

3. A - III, B - I, C - IV, D - II

[Option ID = 1583]

4. A - III, B - I, C - II, D - IV

[Option ID = 1584]

47) How many groups of varieties of gladiolus classified by The North American Gladiolus Council?

उत्तरी अमेरिकी ग्लैडिओलस परिषद ने ग्लैडिओलस की किसीं को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है?

[Question ID = 397][Question Description = 147_91_AGR_AUG22_Q47]

1. 4 [Option ID = 1585]
2. 5 [Option ID = 1586]
3. 6 [Option ID = 1587]
4. 7 [Option ID = 1588]

48) Given below are two statements

Statement I: Ornamental crops accounts for about 75 percent global micro propagation industry.

Statement II: Micro propagation in vegetable crops is uneconomical for most of the crops.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं

वक्तव्य I: सूक्ष्म प्रवर्धन का 75 प्रतिशत वैश्विक उद्योग सजावटी पौधों का है

वक्तव्य II: सब्जियों में सूक्ष्म प्रवर्धन अधिकतर फसलों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक नहीं है

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 398][Question Description = 148_91_AGR_AUG22_Q48]

1. Both Statement I and Statement II are correct

वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1589]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

वरकल्प | और वरकल्प || दोनों ही गतत हैं

[Option ID = 1590]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

वरकल्प | सही है लेकिन वरकल्प || गतत है

[Option ID = 1591]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

वरकल्प | गतत है लेकिन वरकल्प || सही है

[Option ID = 1592]

49) Given below are two statements

Statement I: In jam making, pectin is the most essential constituent.

Statement II: Pectin is present in the cell walls of fruits.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वरकल्प दिए गए हैं

वरकल्प I: जैम बनाने के लिए पेकिटन अति आवश्यक संगठक है

वरकल्प II: पेकिटन फलों की कोशिका भित्ति में उपस्थित होता है

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 399][Question Description = 149_91_AGR_AUG22_Q49]

1. Both Statement I and Statement II are correct

वरकल्प | और वरकल्प || दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1593]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

वरकल्प | और वरकल्प || दोनों ही गतत हैं

[Option ID = 1594]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

वरकल्प | सही है लेकिन वरकल्प || गतत है

[Option ID = 1595]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

वरकल्प | गतत है लेकिन वरकल्प || सही है

[Option ID = 1596]

50) Given below are two statements

Statement I: Ripening in fruits can be retarded by low temperature.

Statement II: Ripening of fruits can be achieved by ethylene.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वरकल्प दिए गए हैं

वरकल्प I: फलों में प्रवक्षण को कम तापमान से रोका जा सकता है

वरकल्प II: ईथीलीन से फलों को पकाया जा सकता है

उपरोक्त कथनों के सन्दर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिये

[Question ID = 400][Question Description = 150_91_AGR_AUG22_Q50]

1. Both Statement I and Statement II are correct

वरकल्प | और वरकल्प || दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1597]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

वरकल्प | और वरकल्प || दोनों ही गतत हैं

[Option ID = 1598]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

वरकल्प | सही है लेकिन वरकल्प || गतत है

[Option ID = 1599]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

वरकल्प | गतत है लेकिन वरकल्प || सही है

[Option ID = 1600]

Topic:- ABC01_Biology

1) Species are considered as

प्रजातियां मानी जाती हैं

[Question ID = 401][Question Description = 101_39_BIO_AUG22_Q01]

1. hypothetical units of classification devised by taxonomists.

टैक्सोनॉमिस्टों द्वारा विकसित वर्गीकरण की आभासीय इकाइयाँ

[Option ID = 1601]

2. real basic unit of classification.

वर्गीकरण की वास्तविक मूल इकाई

[Option ID = 1602]

3. artificial concept of human mind which can not be defined in absolute term.

मानव मरिताक की कृतिम अवधारणा, जिसे पूर्ण अवधि में परिभ्राषित नहीं किया जा सकता

[Option ID = 1603]

4. local names of organisms.

जीवों के स्थानीय नाम

[Option ID = 1604]

2) *Gambusia* is a

गंबुड़िया एक -

[Question ID = 402][Question Description = 102_39_BIO_AUG22_Q02]

1. pest of fishes

मछलियों के पीड़क

[Option ID = 1605]

2. parasitic fish

परजीवी मछली

[Option ID = 1606]

3. predator of mosquito larvae

मच्छर लार्वा का शिकारी

[Option ID = 1607]

4. that transmits yellow fever mosquito

मच्छर जिसके द्वारा पीला बुखार फैलता है

[Option ID = 1608]

3) Match List I with List II

List I	List II
A. <i>Lactobacillus</i>	I. Baking industry
B. <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	II. Production of Citric Acid
C. <i>Propinibacterium shermanii</i>	III. Production of curd from milk
D. <i>Aspergillus niger</i>	IV. Production of cheese

Choose the correct answer from the options given below:

सूची I के साथ सूची II सुमेलित कीजिए :

सूची I	सूची II
A. लैक्टोबैक्टीरियम	I. बेकिंग इंदस्ट्री
B. सैक्योमोइसीस सेरेविंगिया	II. साइट्रिक एसिड का उत्पादन

C. प्रोपिनीबैकटीरियम शेरमनी	III. दूध से दही का उत्पादन
D. एस्पर्मिलस नाइजर	IV. पनीर का उत्पादन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जवाब चुनें :

[Question ID = 403][Question Description = 103_39_BIO_AUG22_Q03]

1. A -II , B -III , C -I , D -IV

[Option ID = 1609]

2. A -IV , B -III , C -II , D -I

[Option ID = 1610]

3. A -III , B -I , C -IV , D -II

[Option ID = 1611]

4. A - IV, B -I , C -II , D -III

[Option ID = 1612]

4) Select correct combinations which differentiate conventional breeding from genetic engineering

A. works by process of selection

B. permits the movement of genetic material between different varieties within species

C. product emphasizes new characters

D. process occurs in nature

E. allows the movement of genetic material from one organism to other organisms

Choose the *correct* answer from the options given below:

आनुवांशिक इंजीनियरिंग से पारंपरिक पूजनान को अलग करने वाले सही संयोजन चुनें -

A. चयन प्रक्रिया द्वारा कार्य करता है

B. एक जाति को भिन्न किसी के बीच आनुवांशिक सामग्री की आवाजाही कराना

C. उत्पाद नए गुणों पर जोर देता है

D. प्रक्रिया प्रकृति में होती है

E. एक जीव से दूसरे जीव में आनुवांशिक सामग्री की आवाजाही की अनुमति देता है

नीचे दिए गए विकल्पों से जवाब चुनें:

[Question ID = 404][Question Description = 104_39_BIO_AUG22_Q04]

1. A, B and D only

A, B और D केवल

[Option ID = 1613]

2. B and D only

B और D केवल

[Option ID = 1614]

3. B, C and E only

B, C और E केवल

[Option ID = 1615]

4. A, B and E only

A, B और E केवल

[Option ID = 1616]

5) Given below are two statements

Statement I: Vaccine production includes the use of weakened pathogen to stimulate the immune system of an organism.

Statement II: Vaccine production is the introduction of any gene encoding immunogenic protein and expression in mammalian cells using recombinant DNA technology.

In light of the above statements, choose the *most appropriate* answer from the options given below

नीचे दो वर्तव्य दिए गए हैं

वर्तव्य I - वैवसीन उत्पादन में एक जीव की प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्तेजित करने के लिए कमज़ोर रोगज़नका का उपयोग शामिल है |

वर्तव्य II - वैवसीन उत्पादन किसी भी जीन एन्कोडिंग प्रतिरक्षाजन्य प्रोटीन की शुरुआत और पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी का उपयोग कर स्तनधारी कांशिकाओं में अभिव्यक्ति है

उपर्युक्त वर्तव्यों के आलोक में निम्नानुकूल विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 405][Question Description = 105_39_BIO_AUG22_Q05]

1. Both Statement I and Statement II are correct

वर्तव्य I और वर्तव्य II दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1617]

2. Both Statement I and Statement II are incorrect

वर्तव्य I और वर्तव्य II दोनों ही गलत हैं

[Option ID = 1618]

3. Statement I is correct but Statement II is incorrect

वर्तव्य I सही है लेकिन वर्तव्य II गलत है

[Option ID = 1619]

4. Statement I is incorrect but Statement II is correct

वर्तव्य I गलत है लेकिन वर्तव्य II सही है

[Option ID = 1620]

6) Which of the following is characterised by endoskeleton consisting of ossicles, a hard plate of Magnesium Carbonate and Calcium Carbonate crystal?

निम्नलिखित में से कौन सा अंतःकंकाल मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल की एक हार्ड प्लेट से बना होता है?

[Question ID = 406][Question Description = 106_39_BIO_AUG22_Q06]

1. Arthropods

संधिपाद

[Option ID = 1621]

2. Echinoderms

एकिनोडर्म्स

[Option ID = 1622]

3. Sponges

संज

[Option ID = 1623]

4. Coelenterates

सिलेन्टरेट्स

[Option ID = 1624]

7) Which of the following DOES NOT belong to kingdom Protista?

निम्नलिखित में से कौन सा जगत प्रोतिस्ता का नहीं है?

[Question ID = 407][Question Description = 107_39_BIO_AUG22_Q07]

1. Amoeba

एमीबा

[Option ID = 1625]

2. Slime moulds

स्लाइम मूल्ड

[Option ID = 1626]

3. Dinoflagellates

डायनोफलैगेलेट्स

[Option ID = 1627]

4. Mycoplasma

माइक्रोप्लाज्मा

[Option ID = 1628]

8) The Immunoglobulin present in the mother's milk is

मां के दूध में मौजूद इम्यूनोग्लोबुलिन है

[Question ID = 408][Question Description = 108_39_BIO_AUG22_Q08]

1. Ig M

आईजी मी

[Option ID = 1629]

2. Ig D

आईजी डी

[Option ID = 1630]

3. Ig A

आईजी-ए

[Option ID = 1631]

4. Ig E

आईजी-ई

[Option ID = 1632]

9) Which property of water molecules enables it to function as a moderator of temperature for living organisms?

पानी के अणुओं का कौन सा गुण इसे जीवित जीवों के लिए तापमान के नियंत्रक के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है?

[Question ID = 409][Question Description = 109_39_BIO_AUG22_Q09]

1. High specific heat

उच्च विशेष गर्मी

[Option ID = 1633]

2. High heat of vaporization

वाष्पीकरण की उच्च गर्मी

[Option ID = 1634]

3. Low surface tension

निम्न सतही तनाव

[Option ID = 1635]

4. High cohesion

उच्च संसर्जन

[Option ID = 1636]

10) Select the group of organisms belonging to the same phylum

एक ही फाइलम से संबंधित जीवों के समूह का चयन करें

[Question ID = 410][Question Description = 110_39_BIO_AUG22_Q10]

1. Sea anemone, Sea pen, Sea fan

सी एनीमोन, सी पेन, सी फैन

[Option ID = 1637]

2. Sea mouse, Sea urchin, Sea anemone

सी माउस, सी अर्टिंग, सी एनीमोन

[Option ID = 1638]

3. Jelly fish, Cuttle fish, Silver fish

जेली फिश, कटल फिश, सिल्वर फिश

[Option ID = 1639]

4. Devil fish, Star fish, Silver fish

डैफिल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश

[Option ID = 1640]

11) Which one of the following pair is NOT correctly matched?

निम्न में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता?

[Question ID = 411][Question Description = 111_39_BIO_AUG22_Q11]

1. Vitamin B12-----Pernicious anemia

विटामिन बी 12-----खटखाक एनीमिया

[Option ID = 1641]

2. Vitamin B6-----Convulsions

विटामिन बी6-----भूख न लगना

[Option ID = 1642]

3. Vitamin B1-----Beriberi

विटामिन बी1-----बेरी-बेरी

[Option ID = 1643]

4. Vitamin B2-----Pellagra

विटामिन बी 2-----पेलाग्रा

[Option ID = 1644]

12) A toxic insecticidal protein produced by *Bacillus thuringienses* kills certain insects but do not kill the bacteria themselves because

एक विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन जो बैसिटस थुरिंगिएन्स और कुछ कीटों को मारते हैं | लेकिन बैक्टीरिया को खवां खत्म नहीं करते हैं क्योंकि

[Question ID = 412][Question Description = 112_39_BIO_AUG22_Q12]

1. Protein enclosed in special sac

विशेष थैली में संलग्न प्रोटीन

[Option ID = 1645]

2. Protein is immature in denatured form

प्रोटीन निपिक्ष्य अवस्था में

[Option ID = 1646]

3. Protein exist in Protopoxin form

प्रोटीन प्रोटोप्रोटोक्सिन अवस्था में

[Option ID = 1647]

4. Bacteria resistant to the protein

प्रोटीन के लिए बैक्टीरिया प्रतिरोधी

[Option ID = 1648]

13) All living organism exhibits

A. Dynamic state

B. Regulatory mechanism

C. Exchange of matter

D. No equilibrium between anabolic and catabolic reactions

E. Steady state

Choose the *correct* answer from the options given below

सभी जीवित प्राणी प्रदर्शित करते हैं

A. गतिशील अवस्था

B. विनियामक तंत्र

C. सामग्री का आदान-प्रदान

D. एनाबोलिक और कैटाबोलिक के बीच संतुलन नहीं

E. स्थिर अवस्था

नीचे दिए गए विकल्पों से जवाब चुनें

[Question ID = 413][Question Description = 113_39_BIO_AUG22_Q13]

1. A, B, & C only

A, B, और C केवल

[Option ID = 1649]

2. A, C & E only

A, C और E केवल

[Option ID = 1650]

3. B, C & E only

B, C और E केवल

[Option ID = 1651]

4. C, D & E only

C, D और E केवल

[Option ID = 1652]

14) "Early oceans were a solution of organic molecules, a primitive soup, from which life arose", hypothesis was proposed by

"आरम्भ में समुद्र कार्बनिक अणुओं का घोल था, जिस प्राचीन सूप से जीवन का उद्भव हुआ" सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न द्वारा किया गया -

[Question ID = 414][Question Description = 114_39_BIO_AUG22_Q14]

1. S. W. Fox

एस. डब्ल्यू. फॉरेस

[Option ID = 1653]

2. Spallanzani

स्पलांजानी

[Option ID = 1654]

3. Melvin Calvin

मेलविन कैल्विन

[Option ID = 1655]

4. Haldane

हैलडेन

[Option ID = 1656]

15) Evolution of group of animals in different directions is -

विभिन्न दिशाओं में पशुओं के समृद्ध का विकास -

[Question ID = 415][Question Description = 115_39_BIO_AUG22_Q15]

1. Convergence

अभिसरण

[Option ID = 1657]

2. Parallel Evolution

समानांतर विकास

[Option ID = 1658]

3. Adaptive Evolution

अनुकूली विकास

[Option ID = 1659]

4. Progressive Evolution

प्रगतिशील विकास

[Option ID = 1660]

16) Match List I with List II

List I	List II
A. Origin of mammals	I. Paleozoic
B. Age of prokaryotic microbes	II. Triassic period
C. First tetrapods appearance	III. Devonian period

D. Appearance of bipedal human ancestors	IV. Eocene
	V. Pliocene

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
A. स्टनधारियों की उत्पत्ति	I. पैलिगोज़ोइक
B. प्रॉकैरियोटिक सुकशजीवों का काल	II. ट्राइएसिक अवधि
C. पहले चतुर्पाद का उद्भव	III. डिवोनियन अवधि
D. पूर्वजों में द्विपाद अवस्था	IV. इयोरीन
	V. पलायोरीन

वीचे दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञानिए :

[Question ID = 416][Question Description = 116_39_BIO_AUG22_Q16]

1. A - II, B - V, C - III, D - I

[Option ID = 1661]

2. A - II, B - I, C - III, D - V

[Option ID = 1662]

3. A - IV, B - V, C - II, D - I

[Option ID = 1663]

4. A - II, B - I, C - V, D - IV

[Option ID = 1664]

17) Arrange the PERIODS of geological time scale in ascending order (starting oldest one)

A. Devonian

B. Triassic

C. Jurassic

D. Silurian

E. Ordovician

Choose the correct answer from the options given below

भू-वैज्ञानिक समय पैमाने की अवधि को आगेरी क्रम में व्यवस्थित करना (सबसे पुरानी अवधि से शुरू करना)

A. डिवोनियन

B. ट्राइएसिक

C. जूरेसिक

D. सिल्यूरियन

E. ओर्डोविसियन

वीचे दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञानिए :

[Question ID = 417][Question Description = 117_39_BIO_AUG22_Q17]

1. E > D > A > B > C

[Option ID = 1665]

2. B > A > C > D > E

[Option ID = 1666]

3. C > B > A > D > E

[Option ID = 1667]

4. E > A > B > D > C

[Option ID = 1668]

18) Select the connecting link between chordates and non-chordates -

कोडेट और नॉन-कोडेट के बीच कनेक्टिंग लिंक का चयन करें -

[Question ID = 418][Question Description = 118_39_BIO_AUG22_Q18]

1. *Peripatus*

पेरिपटस

[Option ID = 1669]

2. *Sphenodon*

स्फेनोडन

[Option ID = 1670]

3. *Balanoglossus*

बैलानोग्लोसस

[Option ID = 1671]

4. *Archaeopteryx*

आर्कोप्टरिक्स

[Option ID = 1672]

19) Select the homologous organ/s from the list-

A. Bat's wing

B. Cat's paw

C. Butterfly wings

D. Lizard's tail

E. Wisdom tooth

Choose the **correct** answer from the options given below:

मूर्ति में से समरूप अंग चुनें

A. चमगादड़ का पंख

B. बिल्ली की पंजा

C. तितली के पंख

D. छिपकली की पूँछ

E. अवकल टाड

नीचे दिए गए विकल्पों से जवाब चुनें:

[Question ID = 419][Question Description = 119_39_BIO_AUG22_Q19]

1. A and B only

A और B केवल

[Option ID = 1673]

2. A, D and E only

A, D और E केवल

[Option ID = 1674]

3. A, B, C and D only

A, B, C और D केवल

[Option ID = 1675]

4. B, D and E only

B, D तथा E केवल

[Option ID = 1676]

20) Thorns of *Bougainvillea* and tendril of *Passiflora* are

बोगन्विलिया के काटे और पेसिफ्लोरा के टेंड्रिल हैं

[Question ID = 420][Question Description = 120_39_BIO_AUG22_Q20]

1. Analogous organs

अनुरूपता अंग

[Option ID = 1677]

2. Homologous organs

होमोलोगेस अंग

[Option ID = 1678]

3. Vestigeal organs

अवशेषी अंग

[Option ID = 1679]

4. Endemic organs

स्थानिक अंग

[Option ID = 1680]

21) Fungi

A. *Saccharomyces cerevisiae* is used in baking and brewing industry

B. All have saprophytic mode of nutrition

C. Possess chlorophyll which may be masked by other pigments

D. The hyphal wall consists of cellulose (chitin)

E. Common mushrooms are fungi

Choose the **correct** answer from the options given below:

कवक

A. *Saccharomyces cerevisiae* का उपयोग बेकिंग और ब्रूँग उद्योग में किया जाता है

B. सभी में पोषण की मृतोपजीवी विधा होती है

C. वलोरोफिल होता है जिसे अन्य रंजकों द्वारा छिपाया जा सकता है

D. हाइपल फीवर में सेल्युलोज (चिटिन) होता है

E. आम मशरूम कवक हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:

[Question ID = 421][Question Description = 121_39_BIO_AUG22_Q21]

1. A, B and D only

A, B और D केवल

[Option ID = 1681]

2. A, C and E only

A, C और E केवल

[Option ID = 1682]

3. B, C and D only

B, C और D केवल

[Option ID = 1683]

4. A, D and E only

A, D और E केवल

[Option ID = 1684]

22) The transverse section of a plant material shows the following anatomical features

a) epidermis

b)The vascular bundles are arranged in a 'ring' and

c) Each vascular bundle is conjoint, open with endarch protoxylem.

This plant material is a

पौधे की सामग्री का अनुप्रस्थ अनुभाग निम्नलिखित शारीरिक विशेषताओं को दर्शाता है-

- क) बाह्यत्वचा
ख) संवर्णीयी बंडल एक रिंग में व्यवस्थित किए जाते हैं और
ग) प्रत्येक संवर्णीयी बंडल एंडार्क प्रोटॉक्साइलम के साथ खुला होता है
इस पौधे की सामग्री को आप किस रूप में पहचानेंगे?

[Question ID = 422][Question Description = 122_39_BIO_AUG22_Q22]

1. Monocotyledonous Stem

एकवीजपत्री तना

[Option ID = 1685]

2. Monocotyledonous Root

एकवीजपत्री जड़

[Option ID = 1686]

3. Dicotyledonous Stem

द्विवीजपत्री तना

[Option ID = 1687]

4. Dicotyledonous Root

द्विवीजपत्री जड़

[Option ID = 1688]

23) Which of the following are used as food?

निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है

[Question ID = 423][Question Description = 123_39_BIO_AUG22_Q23]

1. *Agaricus* and *Morchella*

अगरीक्स और मोर्चेला

[Option ID = 1689]

2. *Aspergillus* and *Penicillium*

एस्पर्जिल्स और पेनिसिलियम

[Option ID = 1690]

3. *Mucor* and *Rhizopus*

म्यूकोर और राइज़ोपस

[Option ID = 1691]

4. *Puccinia* and *Ustilago*

पक्कासीजिया और उस्टिलागो

[Option ID = 1692]

24) Match List I with List II

List I	List II
A. <i>E.coli</i>	I. Agar-agar production
B. <i>Claviceps pupurea</i>	II. Alkaloid from this is used in cough medicines
C. <i>Ephedra</i>	III. Alkaloid obtained is used during childbirth
D. <i>Gelidium</i> and <i>Gracilaria</i>	IV. Assists digestion in human body

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
A. <i>E.coli</i>	I. अगार-अगार उत्पादन

<i>B. Claviceps pupurea</i>	II. इससे मिलने वाले अल्कलोइड का इतेमाल खांसी की दवा में किया जाता है
<i>C. Ephedra</i>	III. प्राप्त अल्कलोइड का उपयोग बच्चे के जन्म के दौरान किया जाता है
<i>D. Gelidium</i> तथा <i>Gracilaria</i>	IV. मानव शरीर में पाचन में सहायता करता है

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 424][Question Description = 124_39_BIO_AUG22_Q24]

1. A - IV , B - III , C - II , D - I

[Option ID = 1693]

2. A - II , B - III , C - IV , D - I

[Option ID = 1694]

3. A - III , B - IV , C - I , D - II

[Option ID = 1695]

4. A - IV , B - III , C - I, D - II

[Option ID = 1696]

25) Given below are two statements

Statement I: Plasmolysis occurs when water moves out of the cell and the cell membrane of the plant cell shrinks away from the cell wall

Statement II: If the external solution is more dilute than the cytoplasm, it is said to be HYPOTONIC

In light of the above statements, choose the correct answer from the options given below

नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं

वक्तव्य- I : प्लास्मोलिसिस तब होता है जब पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है और पादप कोशिका की कोशिका डिल्टी कोशिका अस्ति से दूर सिकुड़ जाती है

वक्तव्य-II : यदि बाह्य वितरण साइटोप्लाज्म से अधिक तनु है, तो वह अत्पपरासारी कहलाता है

उपरोक्त दो वक्तव्यों के क्रम में निम्न में से सही उत्तर का चयन करें :

[Question ID = 425][Question Description = 125_39_BIO_AUG22_Q25]

1. Both Statement I and Statement II are true

वक्तव्य- I और वक्तव्य- II दोनों ही सही हैं

[Option ID = 1697]

2. Both Statement I and Statement II are false

वक्तव्य I और वक्तव्य II दोनों ही झूठे हैं

[Option ID = 1698]

3. Statement I is true but Statement II is false

वक्तव्य I सत्य तोकिन वक्तव्य II गलत है

[Option ID = 1699]

4. Statement I is false but Statement II is true

वक्तव्य-I गलत है तोकिन वक्तव्य-II सत्य है

[Option ID = 1700]

26) The following features are seen in the flowers of a plant:

- a) Male and Female reproductive organs are found on separate flowers,
- b) The male flowers have long filaments, terminating into exposed anther lobes,
- c) The female flowers have long feather-like stigma.

The flowers of this plant are most likely to be pollinated by

पौधे के फूलों में निम्नलिखित विशेषताएं दिखाई देती हैं :

- a) नर और मादा पूजन अंग पर अलग-अलग फूलों पर पाए जाते हैं
- b) नर फूलों में लंबे तंतु होते हैं, जो खुले परागकोश खण्ड में समाप्त होते हैं
- c) मादा फूलों में लंबे पंख जैसे वर्तिकान् होते हैं

इस पौधे के फूलों के परागण निम्न से होने की संभावना है :

[Question ID = 426][Question Description = 126_39_BIO_AUG22_Q26]

1. Water

जल

[Option ID = 1701]

2. Wind

दृश्य

[Option ID = 1702]

3. Bats

चमगादड़

[Option ID = 1703]

4. Birds

पक्षियाँ

[Option ID = 1704]

27) Which of the following is NOT an application of tissue culture?

निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक संवर्धन का अनुप्रयोग नहीं है?

[Question ID = 427][Question Description = 127_39_BIO_AUG22_Q27]

1. Rapid Clonal Propagation

त्वरित वर्णोनल प्रसार

[Option ID = 1705]

2. Somaclonal variations

सोमेल्टोनल विजनता

[Option ID = 1706]

3. Embryo Rescue

झूण बचाव

[Option ID = 1707]

4. Transgenic Plants

ट्रांसजेनिक पौधे

[Option ID = 1708]

28) Bt cotton is a

बीटी कपास एक

[Question ID = 428][Question Description = 128_39_BIO_AUG22_Q28]

1. Cloned Plant

वर्णोन किए गए पौधे

[Option ID = 1709]

2. Hybrid Plant

हाइब्रिड पादप

[Option ID = 1710]

3. Mutated Plant

परिवर्तित पादप

[Option ID = 1711]

4. Transgenic Plant

ट्रांसजेनिक पादप

[Option ID = 1712]

29) Sequentially arrange the following stages nodule formation in plants?

A. Bacteria cause the cortical and pericycle cells to divide, forming a nodule

B. Nodule has vascular connections continuous with those of the root

C. Rhizobium bacteria contact a susceptible root hair

D. Infection thread carries bacteria to inner cortex

E. Successful infection of root hair causes it to curl

Choose the *correct* answer from the options given below

पौधों में नोड्यूल के गठन के प्रमुख चरणों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें :

A. बैक्टीरिया कॉटिकल और पेरीसाइकिल कोशिकाओं को विभाजित करते का कारक बनते हैं तथा एक नोड्यूल बनाते हैं

B. नोड्यूल में संबंधी संबंध जड़ के साथ निरंतर होते हैं

C. ग्रजोवियम बैक्टीरिया संवेदनशील जड़ के रेशे से संपर्क करते हैं

D. संक्रमण धारा बैक्टीरिया को आंतरिक प्रांतस्था में ले जाता है

E. जड़ के रेशों के सफल संक्रमण के कारण वे धुमावदार हो जाते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञान चुनिए

[Question ID = 429][Question Description = 129_39_BIO_AUG22_Q29]

1. A, B, C, D, E

[Option ID = 1713]

2. C, A, B, E, D

[Option ID = 1714]

3. A, C, D, B, E

[Option ID = 1715]

4. C, E, D, A, B

[Option ID = 1716]

30) Which of the following is used as a biocontrol agent against Lepidopteran larvae?

निम्नलिखित में से कौन लेपिडोप्टेरा तारवे के रिवलाफ बायोकंट्रोल एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है?

[Question ID = 430][Question Description = 130_39_BIO_AUG22_Q30]

1. *Trichoderma*

त्रिकोडर्मा

[Option ID = 1717]

2. *Streptococcus*

स्ट्रेप्टोकॉक्स

[Option ID = 1718]

3. *Bacillus thuringiensis*

बैक्टीरियस थुरिंगियस

[Option ID = 1719]

4. *Saccharomyces cerevisiae*

सैक्योमाइसे सेरेविसिया

[Option ID = 1720]

31) Sliding filament model of muscle contraction

A. the area adjacent to the Z-line, where actin myofilaments are not superimposed by myosin myofilaments is I-band.

B. expansion and contraction only occur within the A band, whereas I and H-bands remain constant.

C. M-line is at the center of a sarcomere to which myosin myofilaments bind

D. without ATP, muscles would remain in their contracted state, rather than in their relaxed state

E. thick filaments are composed primarily of actin, tropomyosin, and troponin

Choose the *correct* answer from the options given below:

मांसपेशियों के संकुचन का स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल

A. जेड-लाइन के बगल का क्षेत्र, जहां मायोसिन मायोफिलमेंट द्वारा एविटन मायोफिलमेंट अधिगोपित नहीं किया जाता है, वह आई-बैंड है

- B. विस्तार और संकुचन केवल ए बैंड के भीतर होता है, जबकि आई और एच-बैंड रिथर रहते हैं
- C. एम-रेखा, मारोसिन और मारोफिलामेंट के जोड़ वाले सार्कोमियर के केंद्र पर होती हैं
- D. एटीपी के बिना मांसपेशियां अपनी शिथिल अवस्था में रहने के बजाय अपनी अनुरूपधित अवस्था में रहती हैं
- E. मोटाई वाले फिलामेंट मुख्य रूप से एविटन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोगिन से बने होते हैं

नीचे दिए गए विकल्पों से जवाब चुनें :

[Question ID = 431][Question Description = 131_39_BIO_AUG22_Q31]

1. A, C and D only

A, C और D केवल

[Option ID = 1721]

2. B, D and E only

B, D और E केवल

[Option ID = 1722]

3. C, D and E only

C, D और E केवल

[Option ID = 1723]

4. A, B and D only

A, B और D केवल

[Option ID = 1724]

32) During the parturition, the baby's head is pushing against the cervix causing the cervix wall to stretch. This stretching causes nerve impulses to be sent to the hypothalamus which directs the posterior pituitary to release oxytocin in the blood. Oxytocin stimulates the uterus to contract which pushes the baby's head deeper into the cervix, stretching it further. This situation is a description of which of the following?

प्रसव के दौरान, बच्चे का सिर गर्भाशय ग्रीवा के सामने धकेल रहा है जिससे ग्रीवा की दीवार फैल जाती है यह रिंचाव तंत्रिका आवेग को हाइपोथेलमस में भेजता है जो पीछे के पिट्यूट्री को रक्त में ऑवरसीटोसिन जारी करने का निर्देश देता है ऑवरसीटोसिन गर्भाशय को संकुचित करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो बच्चे के सिर को गर्भाशय ग्रीवा में गहराई से धकेल देता है, इसे आगे बढ़ाता है यह रिथर्न निम्नलिखित में से किस का वर्णन करती है?

[Question ID = 432][Question Description = 132_39_BIO_AUG22_Q32]

1. negative feedback

नकारात्मक प्रतिक्रिया

[Option ID = 1725]

2. positive feedback

सकारात्मक प्रतिक्रिया

[Option ID = 1726]

3. homeostasis

समस्थैतिक

[Option ID = 1727]

4. an afferent pathway to an integrating centre

एकीकृत केंद्र तक पहुंचने का रस्ता

[Option ID = 1728]

33) Which of the following describes the DNA content of human female gametes before the attainment of puberty?

निम्नलिखित में से कौन सा यौवन प्राप्त करने से पहले मानव महिला गैमेटों की डीएनए सामग्री का वर्णन करता है?

[Question ID = 433][Question Description = 133_39_BIO_AUG22_Q33]

1. 46 chromosomes, 92 chromatids

46 क्रोमोजोम, 92 क्रोमेटिड्स

[Option ID = 1729]

2. 23 chromosomes, 23 chromatids

23 क्रोमोजोम, 23 क्रोमेटिड्स

[Option ID = 1730]

3. 23 chromosomes, 46 chromatids

23 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड्स

[Option ID = 1731]

4. 46 chromosomes, 46 chromatids

46 क्रोमोजोम, 46 क्रोमेटिड्स

[Option ID = 1732]

34) Cancellous bone contains

जालीदार अस्थि में होता है

[Question ID = 434][Question Description = 134_39_BIO_AUG22_Q34]

1. lamellae and osteocytes but no trabeculae

लेमेला और ऑस्टोसाइट लोकिन कोई ट्रेबेक्युला नहीं

[Option ID = 1733]

2. trabeculae, canaliculi and osteons

ट्रेबेक्युले, कैनालिकुली और ऑस्टेन

[Option ID = 1734]

3. haversian systems and canaliculi but no osteons

हेवर्शियन तंत्र और कैनालिकुली लोकिन ऑस्टेन नहीं

[Option ID = 1735]

4. trabeculae and lamellae but no osteons

ट्रेबेक्युला और लेमेला लोकिन ऑस्टेन नहीं

[Option ID = 1736]

35) Transmission of sound waves from the outer ear to the inner ear

A. auditory canal

B. cochlea

C. stapes

D. tympanic membrane

E. malleus

Choose the *correct* answer from the options given below

बाहरी कान से आंतरिक कान तक ध्वनि तरंगों का संचरण

A. श्रवण नाल

B. काकातिया

C. रेट्रैट्स

D. टिम्पैनिक डिल्टी

E. मैलियस

नीचे दिए गए विकल्पों से जवाब चुनें

[Question ID = 435][Question Description = 135_39_BIO_AUG22_Q35]

1. D, B, A, E, C

[Option ID = 1737]

2. A, E, C, D, B

[Option ID = 1738]

3. D, C, E, B, A

[Option ID = 1739]

4. A, D, E, C, B

[Option ID = 1740]

36) Match List I with List II

List I	List II
A. Kyoto	I. reconcile worldwide economic development with

protocol	protection of the environment
B. The Montreal protocol	II. measures to protect human health and the environment resulting from modifications to the ozone layer
C. Vienna convention	III. limit and reduce greenhouse gases emissions
D. Rio de Janeiro conference	IV. phasing out the production and consumption of ozone-depleting substances
	V. proposal to construct wildlife sanctuaries

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमिलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
A. व्योटो प्रोटोकॉल	I. पर्यावरण की सुरक्षा के साथ विश्वव्यापी आर्थिक विकास में समंजस्य स्थापित करता है
B. मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल	II. ओजोन परत में संशोधन के परिणामस्वरूप मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के उपाय
C. विधान कन्वेंशन	III. ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित और कम करें
D. रियो डी जनेरियो सम्मेलन	IV. ओजोन-क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना
	V. बन्यजीव अभ्यारण्य बनाने का प्रस्ताव

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 436][Question Description = 136_39_BIO_AUG22_Q36]

1. A -II , B -I , C -III , D -V

[Option ID = 1741]

2. A -III , B -IV , C -II , D -I

[Option ID = 1742]

3. A -IV , B -III , C -V , D -II

[Option ID = 1743]

4. A -I , B -III , C -II , D -IV

[Option ID = 1744]

37) Regarding climatic factors that influence decomposition, select the correct statement

विघटन को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों के संबंध में, सही बयान का चयन करें

[Question ID = 437][Question Description = 137_39_BIO_AUG22_Q37]

1. Cool and moist environment favour decomposition

ठंडा और जल वातावरण विघटन के अनुकूल है

[Option ID = 1745]

2. Warm and moist environment inhibit decomposition

गर्म और जल वातावरण विघटन को रोकता है

[Option ID = 1746]

3. Low temperature and anaerobiosis inhibit decomposition

कम तापमान और अव्यायीयता विघटन को रोकता है

[Option ID = 1747]

4. High temperature and anaerobiosis inhibit decomposition

उच्च तापमान और अव्यायीयता विघटन को रोकता है

[Option ID = 1748]

38) Glucose is NOT normally found in the urine because it

मूत्र में आमतौर पर ब्लूकोज नहीं पाया जाता है क्योंकि यह

[Question ID = 438][Question Description = 138_39_BIO_AUG22_Q38]

1. does not pass through the walls of the glomerulus

ब्लॉमेलस की दीवारों से नहीं गुजरता है

[Option ID = 1749]

2. is kept in the blood by colloid osmotic pressure

कोलाइड ऑस्मोटिक दबाव द्वारा रक्त में रखा जाता है

[Option ID = 1750]

3. is reabsorbed by the tubule cells

नली कोशिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है

[Option ID = 1751]

4. is removed by the body cells before the blood reaches the kidney

रक्त गुर्दे तक पहुंचने से पहले भरीर की कोशिकाओं द्वारा हटाया जाता है

[Option ID = 1752]

39) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion (A): Primary succession is a slow process

Reason (R): To establish a biotic community, fertile soil must be formed

In light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकथन (A) : प्राथमिक अनुकूलन एक धीमी प्रक्रिया है

तर्क (R) : जैविक समुदाय की स्थापना के लिए उपजाऊ मिट्ठी का निर्माण आवश्यक है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नान्ति विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 439][Question Description = 139_39_BIO_AUG22_Q39]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 1753]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 1754]

3. A is true but R is false

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 1755]

4. A is false but R is true

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 1756]

40) If the sun were to suddenly stop providing energy to earth, most ecosystems would vanish. Which of the following ecosystems would likely survive the longest after this hypothetical disaster?

अगर सूर्य ने अचानक पृथी को ऊर्जा देना बंद कर दिया, तो अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्र गायब हो जाएंगे इस काल्पनिक आपदा के बाद निम्नलिखित पारिस्थितिकी पृणालियों में से कौन सा सबसे लंबे समय तक जीवित रहेगा?

[Question ID = 440][Question Description = 140_39_BIO_AUG22_Q40]

1. tropical rain forest

उष्णकटिबंधीय वर्षा वन

[Option ID = 1757]

2. benthic ocean

वैधिक महासार

[Option ID = 1758]

3. tundra

टुंड्रा

[Option ID = 1759]

4. grass land

याराभूमि

[Option ID = 1760]

41) A DNA double helix is 340nm long. The number of nucleotides in this DNA is

डीएनए डबल हेलिक्स 340 nm तके समय तक इस डीएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या है

[Question ID = 441][Question Description = 141_39_BIO_AUG22_Q41]

1. 1000

[Option ID = 1761]

2. 2000

[Option ID = 1762]

3. 200

[Option ID = 1763]

4. 20

[Option ID = 1764]

42) In a DNA sample, the ratio of the Adenine + Guanine and Thymine + Cytosine is 0.9. Calculate the same ratio in complementary DNA strands.

डीएनए नमूने में, एडेनिन + ग्वानिन और थायमाइन + साइटोसिन का अनुपात 0.9 है पूरक डीएनए रसौंजों में समान अनुपात की गणना करें

[Question ID = 442][Question Description = 142_39_BIO_AUG22_Q42]

1. 0.9

[Option ID = 1765]

2. 1.11

[Option ID = 1766]

3. 0.14

[Option ID = 1767]

4. 2

[Option ID = 1768]

43) What is the number of nitrogenous bases if the length of the *E. coli* DNA is 5.78mm?

यदि डीएनए की लंबाई 5.78 मिमी है तो नाइट्रोजन क्षारों की संख्या कितनी है?

[Question ID = 443][Question Description = 143_39_BIO_AUG22_Q43]

1. 16×10^{-9}

[Option ID = 1769]

2. 17×10^{-9}

[Option ID = 1770]

3. 17×10^{-6}

[Option ID = 1771]

4. 16×10^{-6}

[Option ID = 1772]

44) Sphincter of Oddi is present in

स्फिंक्टर ऑफ ओडी पाया जाता है

[Question ID = 444][Question Description = 144_39_BIO_AUG22_Q44]

1. the mucosa of stomach

अमाष्ट की छेँजा झिल्टी

[Option ID = 1773]

2. the submucosa of duodenum

द्यूडिनम की उपलेखा अिल्टी

[Option ID = 1774]

3. the hepatic lobule

हेपिटिक लोब्यूल

[Option ID = 1775]

4. the junction of hepato- pancreatic duct

हेपटो - पैनक्रियास के जोड़ पर

[Option ID = 1776]

45) The thalloid stage of gametophyte in mosses is

काई के सुमकोदमिद की थाईलायड स्तर में

[Question ID = 445][Question Description = 145_39_BIO_AUG22_Q45]

1. Gemma cup

मुकुल कप

[Option ID = 1777]

2. Protonema

प्रोटोनेमा

[Option ID = 1778]

3. Prothallus

प्रोथलस

[Option ID = 1779]

4. Mycorrhiza

कवकमूल

[Option ID = 1780]

46) How long would the peptide be that is translated from this mRNA sequence:

5'AUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC- 3'?

इस एमआरएनए अनुक्रम से पेप्टाइड कब तक अनुवादित किया जाता है :

5-AUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC-3'?

[Question ID = 446][Question Description = 146_39_BIO_AUG22_Q46]

1. 5

[Option ID = 1781]

2. 6

[Option ID = 1782]

3. 9

[Option ID = 1783]

4. 4

[Option ID = 1784]

47) A normal mRNA that reads 5'-UGCCAUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC-3' has an insertion mutation that changes the sequence to 5'- UGCCAUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC- 3'. Which of the following is the correct sequence of amino acids, if the mutated mRNA is translated?

एक सामान्य एमआरएनए जो 5 '-UGCCAUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC-3' पढ़ता है उसमें एक प्रूविलिट उत्परिवर्तन होता है जो अनुक्रम को 5 '-UGCCAUGGUUAAUAACACAUGAGGCCUGAAC-3' में बदलता है यदि उत्परिवर्तित एमआरएनए का अनुवाद किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही अनुक्रम अमीनो एसिड का है?

[Question ID = 447][Question Description = 147_39_BIO_AUG22_Q47]

1. Met - Val - Ile - Thr - His - Glu - Ala

[Option ID = 1785]

2. Met - Val - Asn - Asn - Thr

[Option ID = 1786]

3. Ala - Met - Val - Asn - Asn - Thr

[Option ID = 1787]

4. Ala - Met - Val - Ile - Thr - His - Glu - Ala

[Option ID = 1788]

48) For an experiment, a scientist chose a mRNA which is complementary to the DNA template strand and the DNA template strand is complementary to coding strand. Would you expect the base sequences of mRNA and DNA non-template strand identical?

एक प्रयोग के लिए, एक वैज्ञानिक ने एक एमआरएनए का चयन किया जो डीएनए ट्रैम्पलेट स्ट्रैंड के पूरक है और डीएनए ट्रैम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड के पूरक है वर्ता आप एमआरएनए और डीएनए गैस्ट्रैम्पलेट स्ट्रैंड के समान के आधार अनुक्रमों की अपेक्षा करेंगे?

[Question ID = 448][Question Description = 148_39_BIO_AUG22_Q48]

1. No, they cannot be identical because the T nucleotide in DNA is replaced with the U nucleotide in RNA.

नहीं, वे समान नहीं हो सकते वयोंकि डीएनए में टी न्यूक्यूलियोटाइड को आरएनए में यू न्यूक्यूलियोटाइड से प्रतिस्थापित किया जाता है

[Option ID = 1789]

2. Yes, they can be identical if demethylation of the U nucleotide in RNA occurs, yielding a T nucleotide.

हां, वे समान हो सकते हैं यदि आरएनए में यू न्यूक्यूलियोटाइड का डीमेथाइलेशन होता है, जो एक टी न्यूक्यूलियोटाइड उत्पन्न करता है

[Option ID = 1790]

3. Yes, they can be identical if methylation of the U nucleotide in RNA occurs, yielding a T nucleotide.

हां, वे समान हो सकते हैं यदि आरएनए में यू न्यूक्यूलियोटाइड का डीमेथाइलेशन होता है, जिससे टी न्यूक्यूलियोटाइड उत्पन्न होता है

[Option ID = 1791]

4. No, they cannot be identical because the T nucleotide in RNA is replaced with the U nucleotide in DNA.

नहीं, वे समान नहीं हो सकते वयोंकि आरएनए में टी न्यूक्यूलियोटाइड को डीएनए में यू न्यूक्यूलियोटाइड से प्रतिस्थापित किया जाता है

[Option ID = 1792]

49) Which structure-function pair is mismatched?

कौन सी संरचना-कार्य जोड़ी बेमेल हैं?

[Question ID = 449][Question Description = 149_39_BIO_AUG22_Q49]

1. Smooth endoplasmic reticulum - synthesis of lipids

स्पाइट/ रस्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम-लिपिड का संश्लेषण

[Option ID = 1793]

2. Golgi apparatus - synthesis of polysaccharides

गोल्गी उपकरण-पॉलीसाईकराइड्स का संश्लेषण

[Option ID = 1794]

3. Peroxisome - Cellular respiration

पेरोविसोम-कोशिकीय अवसर

[Option ID = 1795]

4. Vacuole - water balance

वैक्यूमोल-जल संतुलन

[Option ID = 1796]

50) Given below are two statements

Statement I: The Golgi apparatus consists of a group of associated, flattened membranous sacs—cisternae—looking like a stack of pita bread.

Statement II: The membrane of each cisterna in a stack separates its internal space from the cytosol.

In light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन - I : गोल्गी तंत्र में संबद्ध, चपटी शिल्टीदार थैली-सिस्टर्न-पीटा ब्रेड के ढेर की तरह दिखने वाले समृद्ध का एक समृद्ध होता है

कथन - II : रेटेक में प्रत्येक सिस्टर्न की शिल्टी अपने आंतरिक स्थान को साइटोसोल से अलग करती है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 450][Question Description = 150_39_BIO_AUG22_Q50]

1. Both Statement I and Statement II are true

कथन I और II दोनों सत्ती हैं

[Option ID = 1797]

2. Both Statement I and Statement II are false

कथन I और II दोनों गलत हैं

[Option ID = 1798]

3. Statement I is true but Statement II is false

कथन I सत्य है, किन्तु कथन II गलत है।

[Option ID = 1799]

4. Statement I is false but Statement II is true

कथन I असत्य है, किन्तु कथन II सत्ती है।

[Option ID = 1800]

Topic:- ABC01_Chemistry

1) A salt is considered sparingly soluble if its

एक लवण अत्पविलेय माना जाता है यदि इसकी

[Question ID = 451][Question Description = 101_40_CHE_SEP22_Q01]

1. Solubility <0.01M

सिलेंसिटा < 0.01M

[Option ID = 1801]

2. Solubility = 0.01M

सिलेंसिटा = 0.01M

[Option ID = 1802]

3. Solubility > 0.1M

सिलेंसिटा > 0.1M

[Option ID = 1803]

4. $0.01M < \text{solubility} < 0.01M$

$0.01M < \text{सिलेंसिटा} < 0.01M$

[Option ID = 1804]

2) The conductance in electrolytes is due to

विद्युत अपघटनों में चालकता किसके कारण होती है :

[Question ID = 452][Question Description = 102_40_CHE_SEP22_Q02]

1. Flow of free mobile electrons

मुक्त ग्रोबाइल इलेक्ट्रॉनों के गमन से

[Option ID = 1805]

2. Movement of ions

आयनों के गमन से

[Option ID = 1806]

3. Movement of uncharged species

उदारशीन जातियों के गमन से

[Option ID = 1807]

4. Movement of cations only

केवल धनायनों के गमन से

[Option ID = 1808]

3) For an isolated system, if $\Delta U=0$ then what will be value of ΔS ?

एक विलगित निकाय के लिए यदि $\Delta U = 0$ है, तो ΔS का मान होगा

[Question ID = 453][Question Description = 103_40_CHE_SEP22_Q03]

1. $\Delta S=0$

[Option ID = 1809]

2. $\Delta S > 0$

[Option ID = 1810]

3. $\Delta S < 0$

[Option ID = 1811]

4. ΔS is not defined

ΔS परिभासित नहीं है

[Option ID = 1812]

4) The vapour pressure of chloroform and ethylene glycol at 400 K are 300 mm Hg and 500 mm Hg, respectively. Find the vapour pressure of the solution prepared by mixing 50 g of chloroform and 25 g of ethylene glycol at 400 K.

400 K ताप पर चलोरोफॉर्म और एथेलीन ग्लाइकॉल का वाष्प दब क्रमशः 300 mm Hg और 500 mm Hg है 50 g चलोरोफॉर्म और 25 g एथेलीन ग्लाइकॉल को 400 K ताप पर मिलाकर तैयार विलयन का वाष्प दब ज्ञात कीजिए

[Question ID = 454][Question Description = 104_40_CHE_SEP22_Q04]

1. 347.9 mm Hg

[Option ID = 1813]

2. 423.78 mm Hg

[Option ID = 1814]

3. 229.31 mm Hg

[Option ID = 1815]

4. 401.82 mm Hg

[Option ID = 1816]

5) One gets the straight line in Freundlich adsorption isotherm is by plotting:

फ्रॉन्टिलिक अधिशोषण समतापी में सीधी रेखा.....आलेखन द्वारा प्राप्त होती है

[Question ID = 455][Question Description = 105_40_CHE_SEP22_Q05]

1. $\ln(x/m)$ vs P

[Option ID = 1817]

2. Log (x/m) vs log P

[Option ID = 1818]

3. m/x vs P

[Option ID = 1819]

4. x/m vs 1/P

[Option ID = 1820]

6) In the first order reaction, the concentration of reactant decreases from 500 mol/dm^3 to 10 mol/dm^3 in $4.0 \times 10^3 \text{ sec}$.

The rate constant of the reaction is :

पूर्ण कोटि की अभिक्रिया में, अभिकारक की सांदर्भता 4.0×10^3 सेकण्ड में 500 mol/dm^3 से घटकर 10 mol/dm^3 हो जाती है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है-

[Question ID = 456][Question Description = 106_40_CHE_SEP22_Q06]

1. $0.978 \times 10^{-3} \text{ sec}^{-1}$

[Option ID = 1821]

2. $0.978 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ sec}^{-1}$

[Option ID = 1822]

3. $0.432 \times 10^3 \text{ sec}^{-1}$

[Option ID = 1823]

4. $0.432 \times 10^3 \text{ mol L}^{-1} \text{ sec}^{-1}$

[Option ID = 1824]

7) Mark the incorrect statement about zero order reaction

शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में असत्य कथन को चिन्हित करें-

[Question ID = 457][Question Description = 107_40_CHE_SEP22_Q07]

1. The concentration of reactant decreases linearly with time

अभिकारक की सांदर्भता समय के साथ ऐंगिक रूप से घटती जाती है

[Option ID = 1825]

2. The concentration of reactant increases linearly with time
अधिकारक की सांदर्भ समय के साथ ईशेक रूप से बढ़ती जाती है
[Option ID = 1826]
3. Half-life is directly proportional to initial concentration of reactant
अर्ध-आयु अधिकारक की प्रारम्भिक सांदर्भ के समानुपाती होती है
[Option ID = 1827]
4. The unit of rate constant, k is mol L⁻¹ time⁻¹
वेग स्थिरांक की इकाई mol L⁻¹ time⁻¹ है
[Option ID = 1828]

8) An element possesses fcc structure with an edge length of 288 pm. The density of the element is 4.5 g/cm³. How many atoms are present in 155 g of the element?

एक तत्व की 288 pm किनारे की लंबाई के साथ fcc संरचना होती है तत्व का घनत्व 4.5 g/cm³ है 155g तत्व में कितने परमाणु मौजूद हैं?

[Question ID = 458][Question Description = 108_40_CHE_SEP22_Q08]

1. 24.16×10^{23} atoms
 24.16×10^{23} परमाणु
[Option ID = 1829]
2. 57.64×10^{23} atoms
 57.64×10^{23} परमाणु
[Option ID = 1830]
3. 24.16×10^{20} atoms
 24.16×10^{20} परमाणु
[Option ID = 1831]
4. 57.64×10^{20} atoms
 57.64×10^{20} परमाणु
[Option ID = 1832]

9) Which among the following shows Antiferromagnetism?

निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिलोह्युबक्त्व दिखाता है ?

[Question ID = 459][Question Description = 109_40_CHE_SEP22_Q09]

1. H₂O
[Option ID = 1833]
2. NaCl
[Option ID = 1834]
3. C₆H₆
[Option ID = 1835]
4. MnO
[Option ID = 1836]

10) Which of the following option has lowest degree of ionization?

निम्नलिखित विकल्पों में से किसमें न्यूनतम आयनीकरण है-

[Question ID = 460][Question Description = 110_40_CHE_SEP22_Q10]

1. 0.0001 M HCl
[Option ID = 1837]
2. 0.001 M HCl
[Option ID = 1838]
3. 0.01 M HCl
[Option ID = 1839]
4. 0.1 M HCl
[Option ID = 1840]

11) Choose the correct option for the compound whose 0.5 M solution is acidic in nature.

दिए गए विकल्पों में से सही योगिक को चुनें जिसका 0.5M विलयन अम्लीय प्रकृति का है :

[Question ID = 461][Question Description = 111_40_CHE_SEP22_Q11]

1. Ammonium acetate

अमोनियम एसिटेट

[Option ID = 1841]

2. Sodium acetate

सोडियम एसिटेट

[Option ID = 1842]

3. Sodium chloride

सोडियम चलोराइड

[Option ID = 1843]

4. Slaked lime

स्लेटिड लाइम

[Option ID = 1844]

12) According to the Avogadro's law, what is the relation between volume of 1 kg mol of oxygen and volume of 1 kg mol of nitrogen, at normal pressure and temperature? (mass of 1 kg mol of oxygen is 32 kg and mass of 1 kg mol of nitrogen is 28 kg)

अबोगाद्रो के नियम के अनुसार, सामान्य दाब और ताप पर 1 kg mol ऑक्सीजन के आयतन और 1 kg mol नाइट्रोजन के आयतन के बीच क्या संबंध है? (1 kg mol ऑक्सीजन का द्रव्यमान 32 kg और नाइट्रोजन के 1 kg mol का द्रव्यमान 28 kg है)

[Question ID = 462][Question Description = 112_40_CHE_SEP22_Q12]

1. Volume of 1 kg mol of oxygen is double of nitrogen

1 kg mol ऑक्सीजन का आयतन नाइट्रोजन के 1 kg mol के आयतन का दोगुना होता है

[Option ID = 1845]

2. Volume of 1 kg mol of oxygen is less than that of nitrogen

1 kg mol ऑक्सीजन का आयतन नाइट्रोजन के 1 kg mol के आयतन से कम होता है

[Option ID = 1846]

3. Volume of 1 kg mol of oxygen is same as that of nitrogen

1 kg mol ऑक्सीजन का आयतन नाइट्रोजन के 1 kg mol के आयतन के बराबर होता है

[Option ID = 1847]

4. Volume of 1 kg mol of oxygen is triple of nitrogen

1 kg mol ऑक्सीजन का आयतन नाइट्रोजन के 1 kg mol के आयतन का तीन गुना होता है

[Option ID = 1848]

13) The value of K_c of the reaction $2A \rightleftharpoons B+C$ is 2×10^{-3} . At a given time, the composition of reaction mixture is $[A] = [B] = [C] = 3 \times 10^{-4} M$.

Select the correct options.

K_c का मान अभिकृत $2A \rightleftharpoons B+C$ is 2×10^{-3} के लिए है किसी समय पर गसायनिक मिश्रण का संगतन $[A] = [B] = [C] = 3 \times 10^{-4} M$ है

निम्न में से सही विकल्प चुनें :

[Question ID = 463][Question Description = 113_40_CHE_SEP22_Q13]

1. $Q_c < K_c$

[Option ID = 1849]

2. $Q_c > K_c$

[Option ID = 1850]

3. $Q_c = K_c$

[Option ID = 1851]

4. $Q_c \neq K_c$

[Option ID = 1852]

14) Consider the following statements

i. Positive entropy change is possible at any temperature

ii. Combustion of methane is an endothermic process

iii. $q = 0$ for a cyclic process

iv. $q = 0$ for an adiabatic process

Select the correct option for true statement(s):

निम्नलिखित कथनों पर विचार करें :

i. किसी भी ताप पर धनात्मक एन्ट्रॉपी परिवर्तन संभव है

ii. मेथेन का दण्डन एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया है

iii. $q = 0$ चक्रीय प्रक्रिया के लिए

iv. $q = 0$ रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए

निम्न में से सही कथन चुनें :

[Question ID = 464][Question Description = 114_40_CHE_SEP22_Q14]

1. iii and iv Only

केवल iii और iv

[Option ID = 1853]

2. ii, iii and iv Only

केवल ii, iii और iv

[Option ID = 1854]

3. i, iii and iv Only

केवल i, iii और iv

[Option ID = 1855]

4. iv Only

केवल iv

[Option ID = 1856]

15) Values of the standard reduction potential of three metallic ions P, Q and R are 0.77, -2.93 and -0.13, respectively. The correct order of stronger reducing agent is:

तीन धातु आयनों P, Q और R के मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः 0.77, -2.93 और -0.13 हैं पूरब अपचायक का सही क्रम है :

[Question ID = 465][Question Description = 115_40_CHE_SEP22_Q15]

1. R > Q > P

[Option ID = 1857]

2. P > Q > R

[Option ID = 1858]

3. Q > R > P

[Option ID = 1859]

4. R > P > Q

[Option ID = 1860]

16) Which statement is 'true' for equilibrium constant, K_{eq} of a specific reaction?

किसी विशिष्ट अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक K_{eq} के लिए कौन सा कथन 'सत्य' है?

[Question ID = 466][Question Description = 116_40_CHE_SEP22_Q16]

1. It may be changed by the addition of a catalyst.

इसे उत्प्रेरक डालकर को बदला जा सकता है

[Option ID = 1861]

2. It increases if the concentration of one of the products is increased.

यह बढ़ जाती है अगर उत्पादों में से एक की सांदर्भ बढ़ जाती है

[Option ID = 1862]

3. It changes with changes in the temperature.

यह तापमान में बदलाव के साथ बदलती है

[Option ID = 1863]

4. It increases if the concentration of one of the reactants is increased.

यदि किसी एक अभिकारक की संदर्भता बढ़ा दी जाए तो यह बढ़ जाती है

[Option ID = 1864]

17) Select the incorrect option.

निम्नलिखित में से असत्य विकल्प चुनें :

[Question ID = 467][Question Description = 117_40_CHE_SEP22_Q17]

1. Molecularity and order of an elementary reaction are same

आण्विकता तथा कोटि प्राथमिक अभिक्रियों की समान होती है

[Option ID = 1865]

2. $k = Ae^{-E_a/RT}$

[Option ID = 1866]

3. $k = PZ_{AB} e^{-E_a/RT}$

[Option ID = 1867]

4. B is a steric factor

B एक स्ट्रिक्चर कारक है

[Option ID = 1868]

18) Millikan's Oil drop Method was used to determine:

मिलिकन की तेल की बूँद विधि का उपयोग ----- निर्धारण करने के लिए किया गया था-

[Question ID = 468][Question Description = 118_40_CHE_SEP22_Q18]

1. Neutrons

न्यूट्रोन

[Option ID = 1869]

2. Protons

प्रोटॉन

[Option ID = 1870]

3. Positron

पाजीट्रॉन

[Option ID = 1871]

4. Charge on the electrons

इलेक्ट्रॉनों पर आवेष

[Option ID = 1872]

19) Which of the following metals are refined by electrolytic refining method?

A. Cu

B. Ni

C. Zn

D. Fe

Choose the correct option:

निम्नलिखित में कौन सी धातु वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधित की जाती है / है ?

A. Cu

B. Ni

C. Zn

D. Fe

सही विकल्प को चुनें :

[Question ID = 469][Question Description = 119_40_CHE_SEP22_Q19]

1. A and B only
फैल A और B
[Option ID = 1873]
2. A and C only
फैल A और C
[Option ID = 1874]
3. C and D only
फैल C और D
[Option ID = 1875]
4. B and C only
फैल B और C
[Option ID = 1876]

20) On considering the ores of Fe and Cu

- A. Malachite
- B. Calamine
- C. Bauxite
- D. Siderite

Choose the *correct* option have the ores of Fe and Cu.

Fe और Cu के अयस्क को पहचानें :

- A. मेलाकाइट
- B. कैलामाइन
- C. बॉक्साइट
- D. सिडराइट

नीचे दिए गए विकल्पों में से Cu और Fe दोनों के अयस्कों के तिए विकल्प हैं :

[Question ID = 470][Question Description = 120_40_CHE_SEP22_Q20]

1. A and B only
फैल A और B
[Option ID = 1877]
2. B and C only
फैल B और C
[Option ID = 1878]
3. A and D only
फैल A और D
[Option ID = 1879]
4. B and D only
फैल B और D
[Option ID = 1880]

21) Which of the following is correct for the number of bonds present in pyrophosphorous acid?

पायरोफॉस्फोरस अम्ल में गौँजूद बंधों की संख्या के तिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

[Question ID = 471][Question Description = 121_40_CHE_SEP22_Q21]

1. 1 P-OH, 2 P-H, 1 P=O
[Option ID = 1881]
2. 2 P-OH, 2 P-H, 2 P=O
[Option ID = 1882]
3. 2 P-OH, 1 P-H, 1 P=O
[Option ID = 1883]
4. 4 P-OH, 2 P-H, 1 P=O

[Option ID = 1884]

22) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : Oxygen has less negative electron gain enthalpy than sulphur

Reason R : Electronegativity of oxygen is more than sulphur.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

मीठे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकथन (A) : ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एनथेलपी सल्फर की तुलना में कम ऋणात्मक होती है

तर्क (R) : ऑक्सीजन की विद्युतऋणात्मकता सल्फर से अधिक होती है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 472][Question Description = 122_40_CHE_SEP22_Q22]

1. Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 1885]

2. Both A and R are correct but R is NOT the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 1886]

3. A is correct but R is not correct

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 1887]

4. A is not correct but R is correct

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 1888]

23) Match List I with List II

List I	List II
A. PCl_3	I. Tetrahedral
B. H_3PO_2	II. Pyramidal
C. XeF_4	III. Bent T
D. ICl_3	IV. Square Planar

Choose the correct answer from the options given below:

सूची -I को सूची -II से सुमेलित कीजिए :

सूची -I	सूची -II
A. PCl_3	I. चतुष्फलकीय
B. H_3PO_2	II. पिरामिडीय
C. XeF_4	III. बंकित T
D. ICl_3	IV. चर्न समतलीय

मीठे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 473][Question Description = 123_40_CHE_SEP22_Q23]

1. A-I, B-III, C-IV, D-II

[Option ID = 1889]

2. A-I, B-IV, C-III, D-II

[Option ID = 1890]

3. A-II, B-I, C-IV, D-III

[Option ID = 1891]
4. A-II, B-III, C-IV, D-I

[Option ID = 1892]

24) The compound of transition metals have good catalytic properties due to:

- A. smaller size of the metal ions
- B. high ionic charges
- C. ability to adopt multiple oxidation states
- D. higher melting point

Choose the *correct* answer from the options given below:

संक्रमण धातुओं के यौगिकों का उनकी अच्छे उत्प्रेरक गुणधर्म का कारण है :

- A. धातु आयनों के छोटे आकार के कारण
- B. ऊच्च आयनिक आवेशों के कारण
- C. कई ऑक्सीकरण अवस्थाओं को अपनाने की क्षमता के कारण
- D. ऊच्च गतिशीलता के कारण

वीचे दिए गए विकल्पों में से सही ज्ञान चुनें :

[Question ID = 474][Question Description = 124_40_CHE_SEP22_Q24]

1. A and B only

फैल A और B

[Option ID = 1893]

2. C and D only

फैल C और D

[Option ID = 1894]

3. C only

फैल C

[Option ID = 1895]

4. D only

फैल D

[Option ID = 1896]

25) Which one of the following is amphoteric oxide?

निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है?

[Question ID = 475][Question Description = 125_40_CHE_SEP22_Q25]

1. V₂O₅

[Option ID = 1897]

2. CrO₃

[Option ID = 1898]

3. Mn₂O₇

[Option ID = 1899]

4. V₂O₃

[Option ID = 1900]

26) The electronic configuration of Promethium (Atomic number 61) is:

प्रोमेथियम (परमाणु क्रमांक 61) का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है:

[Question ID = 476][Question Description = 126_40_CHE_SEP22_Q26]

1. [Xe] 4f⁵ 5d⁰ 6s²

[Option ID = 1901]

2. [Xe] 4f⁷ 5d⁰ 6s¹

[Option ID = 1902]

3. [Xe] 4f⁵ 5d¹ 6s¹

[Option ID = 1903]

4. [Xe] 4f⁵ 5d² 6s⁰

[Option ID = 1904]

27) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : Zinc is not a transition metal.

Reason R : Zn²⁺ has completely filled d orbitals.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकथन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकथन (A) : जिनके संक्रमण धातु नहीं है

तर्क (R) : Zn²⁺ में d ऑर्बिटल्स पूरी तरह से भरा होता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 477][Question Description = 127_40_CHE_SEP22_Q27]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 1905]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 1906]

3. A is true but R is false

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 1907]

4. A is false but R is true

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 1908]

28) Identify the correct option from the following in which all molecules exhibit zero dipole moment:

निम्नलिखित में से सही विकल्प की पहचान करें जिसमें सभी अणु शून्य डिप्लोप आधूर्ण प्रतिरूप करते हैं

[Question ID = 478][Question Description = 128_40_CHE_SEP22_Q28]

1. NF₃, CO₂, CCl₄

[Option ID = 1909]

2. BF₃, H₂S, CCl₄

[Option ID = 1910]

3. BF₃, CO₂, CCl₄

[Option ID = 1911]

4. BF₃, CO₂, CHCl₃

[Option ID = 1912]

29) On considering the following compounds:

A. Na₂HPO₄

B. Na₆P₆O₁₈

C. Ca₃(PO₄)₂

D. Na₂CO₃

Choose the *correct* answer for water softening reagents.

निम्नलिखित यौगिकों को ध्यान देते हुए :

A. Na_2HPO_4

B. $\text{Na}_6\text{P}_6\text{O}_{18}$

C. $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$

D. Na_2CO_3

जल मृदुकरण अभिकर्मकों के लिए सही विकल्प चुनें :

[Question ID = 479][Question Description = 129_40_CHE_SEP22_Q29]

1. A and B only

फैसल A और B से

[Option ID = 1913]

2. B and C only

फैसल B और C से

[Option ID = 1914]

3. A and D only

फैसल A और D से

[Option ID = 1915]

4. B and D only

फैसल B और D से

[Option ID = 1916]

30) Given below are two statements, one is labelled as Assertion A and the other is labelled as Reason R

Assertion A : Beryllium carbonate is kept in the atmosphere of carbon dioxide.

Reason R : Beryllium carbonate decomposes on heating to give beryllium metal and carbon dioxide.

In light of the above statements, choose the *correct* answer from the options given below

वीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को अभिकर्थन (A) और दूसरे को तर्क (R) कहा गया है

अभिकर्थन (A) : बेरिलियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जाता है

तर्क (R) : बेरिलियम कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर बेरिलियम धातु और कार्बन डाइऑक्साइड देता है

उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनें :

[Question ID = 480][Question Description = 130_40_CHE_SEP22_Q30]

1. Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है

[Option ID = 1917]

2. Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A

(A) और (R) दोनों सही हैं परन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है

[Option ID = 1918]

3. A is true but R is false

(A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है

[Option ID = 1919]

4. A is false but R is true

(A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है

[Option ID = 1920]

31) What is the mass percent of carbon in carbon dioxide?

कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का द्रव्यमान प्रतिशत कितना है?

[Question ID = 481][Question Description = 131_40_CHE_SEP22_Q31]

1. 0.034%

[Option ID = 1921]

- 2. 3.4%
[Option ID = 1922]
- 3. 28.7%
[Option ID = 1923]
- 4. 27.27%
[Option ID = 1924]

32) Oxidation state of Cl in species produced on disproportionation reaction of ClO_2^- are:

ClO_2^- की असामान्याती अणिक्रूया से मिली जातियों में Cl की ऑक्सीकरण अवस्था हैं-

[Question ID = 482][Question Description = 132_40_CHE_SEP22_Q32]

- 1. +1, +5
[Option ID = 1925]
- 2. -1, +5
[Option ID = 1926]
- 3. +1, +7
[Option ID = 1927]
- 4. -1, +7
[Option ID = 1928]

33) Which of the following complex is used for the treatment of lead poisoning?

निम्नलिखित में से किस संकुल का उपयोग सीसा विधाक्ता के उपचार के लिए किया जाता है?

[Question ID = 483][Question Description = 133_40_CHE_SEP22_Q33]

- 1. D-penicillamine
D- पेनिसिलेमिन
[Option ID = 1929]
- 2. EDTA
[Option ID = 1930]
- 3. Cis-platin
Cis-प्लैटिन
[Option ID = 1931]
- 4. Desferrioxime B
डेरफेरिओक्साइम B
[Option ID = 1932]

34) The crystal system of Cinnabar is:

सिनबार का क्रिस्टल तंत्र है-

[Question ID = 484][Question Description = 134_40_CHE_SEP22_Q34]

- 1. Trigonal
त्रिकोणी
[Option ID = 1933]
- 2. Tetrahedral
चतुष्फलकीय
[Option ID = 1934]
- 3. Cubic
घनीय
[Option ID = 1935]
- 4. Triclinic
त्रिनाताश
[Option ID = 1936]

- 35) In the following reaction, if 'X' is an alkyne with lowest molecular weight, then maximum number of atoms in 'Z' are _____

निम्नलिखित अभिक्रिया में यदि 'X' एक न्यूनतम् आणविक भार वाला ऐल्काइन हो तो 'Z' में अधिकतम परमाणुओं की संख्या है:



[Question ID = 485][Question Description = 135_40_CHE_SEP22_Q35]

1. 15

[Option ID = 1937]

2. 16

[Option ID = 1938]

3. 14




[Option ID = 1939]

4. 17

[Option ID = 1940]

- 36) For the following compounds:

निम्नलिखित यौगिकों के लिए :



Choose the **correct** answer from the options shows maximum intermolecular hydrogen bonding.

नीचे दिए गए विकल्पों में से अधिकतम अंतर - आणविक हाइड्रोजन आबंध वाले यौगिक हैं / हैं:

[Question ID = 486][Question Description = 136_40_CHE_SEP22_Q36]

1. iii) only

केवल iii)

[Option ID = 1941]

2. i) and ii) only

केवल i) और ii)

[Option ID = 1942]

3. ii) only

केवल ii)

[Option ID = 1943]

4. i), ii) and iii)


i), ii) और iii)

[Option ID = 1944]


- 37) Choose the correct option for the feasible reaction.

सम्भावित अभिक्रिया के लिए सही विकल्प को चुनें :

[Question ID = 487][Question Description = 137_40_CHE_SEP22_Q37]



[Option ID = 1945]




[Option ID = 1946]



[Option ID = 1947]



[Option ID = 1948]



The above reaction is an example of:

उपरोक्त अभिक्रिया उदाहरण है-

[Question ID = 488][Question Description = 138_40_CHE_SEP22_Q38]

1. Nucleophilic addition reaction

नायिकरणीयोगज अभिक्रिया

[Option ID = 1949]

2. Electrophilic addition reaction

इलेक्ट्रॉफिलरणीयोगज अभिक्रिया

[Option ID = 1950]

3. Electrophilic substitution reaction


इलेक्ट्रॉफिलरणीय प्रतिस्थापन अभिक्रिया

[Option ID = 1951]

4. Free radical addition reaction

मुक्त मूलक योगज अभिक्रिया


[Option ID = 1952]




Select the correct option for the reactant to get 'A' via ozonolysis.

अभिकारक के लिए सही विकल्प को चुनें जो ओजोनोलिसिस के पश्चात् उत्पाद A देता है:


[Question ID = 489][Question Description = 139_40_CHE_SEP22_Q39]



[Option ID = 1953]



[Option ID = 1954]



[Option ID = 1955]



[Option ID = 1956]

40) Select the correct statement for CH₃F, CH₃Cl, CH₃Br and CH₃I.

CH₃F, CH₃Cl, CH₃Br और CH₃I के लिए सही कथन को चुनें :

[Question ID = 490][Question Description = 140_40_CHE_SEP22_Q40]

1. Dipole moment of I-CH₃ is maximum

CH₃-I का द्विधुत आपूर्ण अधिकतम है

[Option ID = 1957]

2. C-X Bond enthalpy of F-CH₃ is maximum

CH₃-F की बंधन एन्हैटी अधिकतम है

[Option ID = 1958]

3. Dipole moment of C-X for CH₃-Cl is more than CH₃-Br

C-X द्विधुत आपूर्ण CH₃-Cl के लिए CH₃-Br से अधिक है

[Option ID = 1959]

4. Dipole moment of C-X for CH₃-CH₃-F is more than CH₃-Cl

C-X द्विधुत आपूर्ण CH₃-F के लिए CH₃-Cl से अधिक है

[Option ID = 1960]

41) Match the name of reagent (given in column A) with the formula of reagent (given in column B).

Column A	Column B
i. Lucas reagent	a. Alkaline KMnO ₄
ii. Bayer's reagent	b. CH ₃ MgBr
iii. PCC	c. ZnCl ₂ + HCl
iv. Grignard reagent	d.

Choose the **correct** answer from the options given below:

अभिकर्मक (स्तंभ A) के नाम को अभिकर्मक के सूत्र (स्तंभ B) से सुमेलित कीजिए।

स्तंभ A	स्तंभ B
i. ल्यूकास अभिकर्मक	a. क्षारीय KMnO ₄
ii. बेयर अभिकर्मक	b. CH ₃ MgBr
iii. PCC	c. ZnCl ₂ + HCl
iv. ग्रिन्यार अभिकर्मक	d.

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

[Question ID = 491][Question Description = 141_40_CHE_SEP22_Q41]

1. i-c, ii-d, iii-a, iv-b

[Option ID = 1961]

2. i-b, ii-c, iii-a, iv-d

[Option ID = 1962]

3. i-b, ii-d, iii-a, iv-c





[Option ID = 1963]

4. i-c, ii-a, iii-d, iv-b

[Option ID = 1964]

42) For the given compounds:

दिए गये यौगिकों में



Which of the compound undergo fastest S_N1 reaction?

कौन सा यौगिक सबसे तेज S_N1 अभिक्रिया करेगा ?

[Question ID = 492][Question Description = 142_40_CHE_SEP22_Q42]

1. A [Option ID = 1965]

2. C [Option ID = 1966]


3. D [Option ID = 1967]

4. B [Option ID = 1968]


43) Select the incorrect reaction.

गलत अभिक्रिया को चुनें :


[Question ID = 493][Question Description = 143_40_CHE_SEP22_Q43]




[Option ID = 1969]



[Option ID = 1970]



[Option ID = 1971]



[Option ID = 1972]

44) Which one of the following is the strongest acid?

निम्नलिखित में से कौन सा सबसे 強त अम्ल है?

[Question ID = 494][Question Description = 144_40_CHE_SEP22_Q44]

1. N, N-Dimethylaniline

N, N-डाइमीथिलऐनिलीन

[Option ID = 1973]

2. N-Methylaniline

N-मीथिलऐनिलीन

[Option ID = 1974]

3. Methanamine

मीथेनामीन

[Option ID = 1975]


4. N-Methylmethanamine

मीथिलमीथेनामीन


[Option ID = 1976]

45) Which of the product (major) will be obtained in the given reaction?


दी अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद (मुख्य) प्राप्त होगा?




[Question ID = 495][Question Description = 145_40_CHE_SEP22_Q45]



[Option ID = 1977]



[Option ID = 1978]



[Option ID = 1979]



[Option ID = 1980]

46) Choose the correct statement.

सत्य कथन को चुनें-

[Question ID = 496][Question Description = 146_40_CHE_SEP22_Q46]

1. Monosaccharides are held together by peptide linkages to form disaccharides or polysaccharides.

मोनोसैक्याइड पेप्टाइड बन्ध द्वारा जुड़कर डाइसैक्याइड या पॉलीसैक्याइड बनाते हैं

[Option ID = 1981]

2. Disaccharides are held together by peptide linkages to form Monosaccharide or polysaccharides.

डाइसैक्याइड पेप्टाइड बन्ध द्वारा जुड़कर मोनोसैक्याइड या पॉलीसैक्याइड बनाते हैं

[Option ID = 1982]

3. Monosaccharides are held together by phosphodiester linkages to form disaccharides or polysaccharides.

मोनोसैक्ट्रिकाइड फॉर्मेटिवडाइरटर बन्ध द्वारा जुड़कर डाइसैक्ट्रिकाइड या पॉलीसैक्ट्रिकाइड बनाते हैं

[Option ID = 1983]

4. Monosaccharides are held together by glycosidic linkages to form disaccharides or polysaccharides.

मोनोसैक्ट्रिकाइड ग्लाइकोसिड बन्ध द्वारा जुड़कर डाइसैक्ट्रिकाइड या पॉलीसैक्ट्रिकाइड बनाते हैं

[Option ID = 1984]

47) Which of the following amino-acid is not an essential amino-acid?

निम्नलिखित में से कौन सा ऐमीनो अम्ल आवश्यक ऐमीनो अम्ल नहीं है ?

[Question ID = 497][Question Description = 147_40_CHE_SEP22_Q47]

1. Cysteine

सिस्टीन

[Option ID = 1985]

2. Lysine

लाइसीन

[Option ID = 1986]

3. Methionine

मेथाइओनिन

[Option ID = 1987]

4. Histidine

हिस्टिडीन

[Option ID = 1988]

48) Select the correct statement:

सही कथन को चुनें :

[Question ID = 498][Question Description = 148_40_CHE_SEP22_Q48]

1. The maximum limit of nitrate in drinking water is 200 ppm.

पाने वाले पानी में नाइट्रेट की अधिकतम सीमा 200 ppm होती है

[Option ID = 1989]

2. Methane reacts with ozone to give formic acid only.

मेथेन औजान से अणिपिण्डा करके केवल फॉर्मिक अम्ल होती है

[Option ID = 1990]

3. These days, the pesticide industry has shifted its attention to germicides such as sodium chlorate (NaClO_3), sodium arsinite (Na_3AsO_3).

आजकल कॉटनाशक उद्योग जे अपना ध्यान सोडियम च्लोरेट (NaClO_3), सोडियम आर्सिनेट (Na_3AsO_3) जैसे कोटाइयनाशकों की ओर स्थानांतरित कर दिया है

[Option ID = 1991]

4. Most herbicides are toxic to mammals but are not as persistent as organochlorides.

अधिकांश शाकाहारी रसायनारियों के लिए विषेश होते हैं तोकिन कार्ब-वलोराइड्स की तरह स्थायी नहीं होते हैं

[Option ID = 1992]

49) Select the correct statement for rubber.

रबर के लिए सही कथन को चुनें :

[Question ID = 499][Question Description = 149_40_CHE_SEP22_Q49]

1. Natural rubber becomes hard at high temperature ($>335\text{K}$) and brittle at low temperature ($<283\text{K}$)

प्राकृतिक रबर उच्च ताप पर कठोर ($>335\text{K}$) और निम्न ताप पर ($<283\text{K}$) छड़भंगर हो जाता है

[Option ID = 1993]

2. Natural rubber is insoluble in non-polar solvents.

प्राकृतिक रबर अधूरीय पितायाकों में असूलनशील होता है

[Option ID = 1994]

3. Natural rubber has high water absorption capacity

प्राकृतिक रबर की उच्च जल अवशोषण क्षमता होती है

[Option ID = 1995]

4. 15% of sulphur is used as a cross linking agent to manufacture rubber tyres.

टायर बनाने के लिए प्लग को वाली रबर के उत्पादन में 15% सल्फर का उपयोग तिरका बंधक के लिए किया जाता है

[Option ID = 1996]

50) The pH of acid rain is around:

अम्लीय वर्षा का pH लगभग होता है-

[Question ID = 500][Question Description = 150_40_CHE_SEP22_Q50]

1. 5.6 [Option ID = 1997]
2. 7.1 [Option ID = 1998]
3. 2.0 [Option ID = 1999]
4. 6.8 [Option ID = 2000]

